



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 4—अप्रैल 10, 2015 (चैत्र 14, 1937)  
No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 4—APRIL 10, 2015 (CHAITRA 14, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	199	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	305	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	711	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	291
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	41
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	309
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण.....	*

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	199	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	305	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	711	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	291
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	41
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	309
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

**भाग I — खण्ड 1****[PART I—SECTION 1]**

**[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]**

**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2015

संख्या 13-प्रेज/2015—राष्ट्रपति असाधारण वीरतापूर्ण कार्यों के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को "कीर्ति चक्र" पुरस्कार प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी-74786एम कैप्टन जयदेव, दि पैराचूट रेजिमेन्ट (विशेष बल) / तीसरी बटालियन दि राष्ट्रीय राईफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 19 जून, 2014)

19 जून, 2014 की शाम को 3 राष्ट्रीय राईफल्स को जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा जिले के बुट्स गांव में तीन आतंकवादियों के मौजूद होने की खुफिया जानकारी प्राप्त हुई। 3 राष्ट्रीय राईफल्स और 10 पारा (विशेष बल) की एक संयुक्त सैन्य कार्रवाई प्रारंभ की गई। कैप्टन जयदेव ने तुरन्त कार्रवाई शुरू की और संपर्क बनाने के लिए सात सदस्यों की टीम के साथ चल पड़े।

तैनाती के दौरान कैप्टन जयदेव ने 15 मीटर आगे तीन संदिग्ध आतंकवादियों की आवाजाही देखी जिन्होंने चुनौती दिए जाने पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिसमें अफसर और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। अपने उस साथी जिसने एक आतंकवादी को मार गिराया था, के शरीर से तेजी से खून बहता देख कर, वह उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। टांग और सीने में चोटों और तेजी से बहने खून की परवाह किए बिना कैप्टन जयदेव ने अदम्य साहस, असाधारण शौर्य और लड़ाका जज्बे का प्रदर्शन करते हुए बाकी आतंकवादियों पर भारी गोलीबारी प्रारंभ कर दी और निकट मुकाबले में उनको मार गिराया। मरते हुए आतंकवादी ने कैप्टन जयदेव पर पुनः गोली दाग दी जिससे उनके चेहरे पर चोट आई। घातक चोटों के बावजूद अफसर ने कार्रवाई समाप्त होने तक वहां से सुरक्षित स्थान पर जाने से मना कर दिया। इस कार्रवाई में कैप्टन जयदेव ने व्यक्तिगत रूप से दो वांछित आतंकवादी कमांडरों को मार गिराया।

कैप्टन जयदेव ने भारी गोलीबारी के बीच अदम्य साहस और असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए आतंकवादियों के साथ निकट मुठभेड़ में उनका अंत कर दिया।

2. जेसी-602970 वाई नायब सूबेदार कोश बहादुर गुरूंग

1 गोरखा राईफल्स/ 15वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 10 सितम्बर, 2014)

नायब सूबेदार कोश बहादुर गुरूंग जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के सुंदरमाली के सामान्य क्षेत्र में 12500 फीट से ऊपर स्थित सैन्य कार्रवाई में घातक प्लाटून का नेतृत्व कर रहे थे।

घुसपैठ की कोशिश करते हुए भारी-भरकम हथियारों से लैस आतंकवादियों ने उस इलाके में अंधेरे और बड़ी चट्टानों का लाभ उठाकर असाल्ट राइफलों और अंडर बैरल ग्रेनेड लांचरों (यूबीजीएल) का प्रयोग कर के घातक प्लाटून पर जबरदस्त गोलीबारी प्रारंभ कर दी। अपने साथियों पर गंभीर खतरे को भांप कर और ये जानकर कि आतंकवादी भाग सकते हैं, जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर अदम्य साहस और असाधारण क्षेत्र कौशल का प्रदर्शन करते हुए गोलियों की बौछार के बीच रेंगते हुए आतंकवादियों के निकट मुकाबला करने के लिए पहुँच गए। यह महसूस करते हुए कि विशाल चट्टानों के बीच अंतराल से होकर केवल एक व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है, वे अकेले ही युक्तिपूर्वक सुरक्षित स्थिति में पहुंचने में कामयाब रहे और ऊपर से ग्रेनेड दाग कर आतंकवादियों को धराशायी कर दिया। बाद में वह दस मीटर तक रेंगते हुए आगे बढ़े और एक आतंकवादी का सफाया करने के लिए चट्टानों के बीच अल्प अंतराल से सटीक गोलीबारी की। अब दूसरे आतंकवादी ने गोलीबारी प्रारंभ कर दी और उनके ऊपर झपटा। बराबर की आक्रामता के साथ जेसीओ ने अपनी खुकरी बाहर निकाली और उस पर हमला कर दिया। उनमें हाथापाई की लड़ाई शुरू हो गई जब उन्होंने आतंकवादी को जमीन पर गिरा दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया।

नायब सूबेदार कोश बहादुर गुरूंग ने आतंकवादियों की गोलीबारी के समक्ष असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया।

3. **जेसी-531276ए सूबेदार अजय वर्धन**  
**14वीं बटालियन दि गढ़वाल राईफल्स (मरणोपरान्त)**

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 01 दिसम्बर, 2014)

सूबेदार अजय वर्धन, प्लाटून कमांडर, अल्फा कंपनी, 14 गढ़वाल राईफल्स को जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के निकट 13000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया गया था।

01 दिसम्बर को 2100 बजे सैन्य कार्रवाई दल का नेतृत्व करते समय वे प्वाइंट 4053 पर घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के आमने सामने आ गए। शत्रु की भारी गोलीबारी, दुर्गम भू-भाग और शून्य से नीचे तापमान के बावजूद उन्होंने लाइट मशीन गन और राइफल से गोलीबारी के साथ आतंकवादियों को उलझाए रखा और बटालियन मुख्यालय को आतंकवादियों की अवस्थिति एवं उनकी संख्या के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी। अपनी टुकड़ी को कौशलपूर्वक तरीके से तैनात करते हुए उन्होंने नजदीकी मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया। घायल सैनिक को प्राथमिक उपचार प्रदान करने के दौरान उन्होंने अपने टीम के अन्य घायल सदस्य को दो आतंकवादियों के चुंगल में आते देखा। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह किए बिना उन्होंने आतंकवादियों पर गोलीबारी कर दी और थोड़ी सी दूरी पर दूसरे आतंकवादी को मार गिराया तथा दूसरे का मुकाबला करते हुए घायल सैनिक की रक्षा की। शेष आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की। अपने सिर और शरीर में अनेक गोलियां लगने के बावजूद भी वे उस सैनिक को खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले गए और स्वयं की सुरक्षित स्थान पर ले जाने से मना कर दिया और अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गए।

सूबेदार अजय वर्धन ने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए कर्तव्य से ऊपर उठकर उत्कृष्ट बहादुरी, अनुकरणीय पहल शक्ति, सखापन और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया।

सुरेश यादव

राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 14-प्रेज/2015— राष्ट्रपति वीरतापूर्ण कार्यों के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को "शौर्य चक्र पुरस्कार" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. **श्री मुश्ताक अहमद, कांस्टेबल, गृह विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार (मरणोपरान्त)**

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 01 जुलाई, 2013)

01.07.2013 को आतंकवादियों के बारे में विशेष सूचना प्राप्त होने पर पुलिस और 185 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा मन्दुरा ताल गांव में एक घर के चारों ओर संयुक्त सैन्य कार्रवाही प्रारंभ की गई। श्री अब्दुल वहीद, पुलिस अधीक्षक, वांतीपोरा द्वारा दो तलाशी टीमों एक उप पुलिस अधीक्षक एजाज रसूल, पुलिस उप अधीक्षक (संक्रिया) ट्राल के नेतृत्व में और दूसरी टीम पुलिस उप अधीक्षक परवेज अहमद, एसडीपीओ, अवंतीपोरा के नेतृत्व में गठित की गई। स्थिति को भांपते हुए घर के अंदर छिपे हुए आतंकवादियों ने उस घर के तीन कमरों से तलाशी टीमों पर अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ कर दी जिसके परिणामस्वरूप एसजीसीटी मंजूर अहमद गोलियों से बुरी तरह घायल हो गए और उन्होंने आहाते के अंदर पेड़ के पीछे शरण ली। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दो कार्मिक उपनिरीक्षक जसवंत सिंह और कांस्टेबल मनोज राम जो बाहरी घेराबंदी में थे, उनको भी चोटें आईं। आत्म रक्षा में जवाबी गोलीबारी की गई और आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने और घर के एक कमरे में बंद किए गए परिवार के सदस्यों को बाहर निकालने देने के लिए कहा गया जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया। घायल पुलिस कार्मिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के पश्चात जैसे ही पुलिस दल ने घर में प्रवेश किया, वैसे ही वे दो अलग-अलग दिशाओं से आने वाली भारी गोलीबारी के बीच फंस गए। अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ पुलिस उप अधीक्षक एजाज रसूल ने आतंकवादियों को गोलीबारी करने में व्यस्त रखा जबकि एसजीसीटी परवेज अहमद सहित अन्य कार्मिकों ने घायल पुलिस कार्मिकों को सहारा दिया।

घायल पुलिस कार्मिकों को बाहर निकालता देखकर एक आतंकवादी तत्काल घर से निकला और बाहर निकालने में लगे पुलिस दल पर गोलीबारी कर दी। कांस्टेबल मुश्ताक अहमद जो बाहर निकालने वाले पुलिस दल के साथ थे, एक हाथ से पुलिस दल को सहारा दे रहे थे और अपनी जान की परवाह किए बिना वे दूसरे हाथ से बहादुरी पूर्वक आतंकवादियों से मोर्चा ले रहे थे। आतंकवादी ने पुलिस दल पर ग्रेनेड दागा, फिर भी कांस्टेबल मुश्ताक अहमद ने एक ही सैकेंड में ग्रेनेड को अपने पैर से पुलिस दल से दूर कर दिया, जो कुछ ही गज की दूरी पर फट गया। अब आतंकवादी और पुलिस कार्मिक कुछ गज की दूरी पर एक दूसरे पर गोलीबारी करते हुए आमने-सामने थे और इस प्रक्रिया के दौरान कांस्टेबल मुश्ताक अहमद गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में अपने जख्मों के कारण शहीद हो गए। भारी मात्रा में गोलीबारी के बीच पुलिस दल ने घर के दरवाजे को तोड़कर बंधक सदस्यों के कमरे में प्रवेश किया और उन्हें मुक्त कराया। यह कार्रवाही भारी गोलीबारी के बीच अंजाम दी गई जिसमें 3 कट्टर आतंकवादियों का खात्मा हुआ।

श्री मुश्ताक अहमद ने आतंकवादियों से मोर्चा लेते हुए अनुकरणीय शौर्य का प्रदर्शन किया और सर्वोच्च बलिदान दिया।

2. 13769423एल राईफलमैन मांगा राम, तीसरी बटालियन  
दि जम्मू और कश्मीर राईफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 09 मई, 2014)

राईफलमैन मांगा राम ने असम के कर्बी अंगलॉग जिले में 09 मई 2014 को आरंभ किए गए 'आपरेशन लांगतेबुक' के दौरान स्वेच्छापूर्वक दल के पीछे रहने की इच्छा जाहिर की। छठे दिन गुप्त सूचना के आधार पर राईफलमैन मांगा राम ने स्काउट के रूप में कार्य करते हुए कठिन भू-भाग पार करते हुए बिल्कुल गोपनीयता बनाए रखते हुए संदिग्ध क्षेत्र की ओर दल का मार्ग दर्शन किया। जैसे ही यह दल घेराबंदी कायम करने के पश्चात संदिग्ध झोपड़ी की ओर आगे बढ़ा वैसे ही सैन्य टुकड़ियों पर अनेक दिशाओं से भारी मात्रा में गोलीबारी होने लगी। गंभीर खतरे को महसूस कर उन्होंने अनुकरणीय पहलशक्ति और ठोस कौशलपूर्ण कुशाग्रता का प्रदर्शन करते हुए तत्काल कार्रवाई की और जब दल का मुखिया अपने साथियों के साथ गोलीबारी को एक तरफ से निष्क्रिय करने का प्रयास कर रहा था उसी बीच वे अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह किए बिना भारी गोलीबारी के बीच रेंगते हुए निकट तक पहुँचे और उन्होंने एक के बाद दूसरे आतंकवादी को मार गिराया। उसके पश्चात कोई भी उपाय न छोड़ते हुए उन्होंने अपने साथी को दूसरे आतंकवादी का मुकाबला करने के लिए सूचित किया और उस पर भारी मात्रा में गोलीबारी की। समूची कार्रवाई के परिणामस्वरूप छह आतंकवादियों का सफाया हो गया और वहाँ से बड़े युद्ध जैसी सामग्री बरामद हुई।

राईफलमैन मांगा राम ने अनेक सैन्य कार्रवाहियों में शौर्य कृत्यों का परिचय देना जारी रखा और भारतीय सेना की सर्वोत्कृष्ट परम्पराओं के अनुरूप अपने साथियों की रक्षा के लिए स्वयं को अत्यंत खतरे में डाला।

3. **इंसपेक्टर/जीडी, मंजीत सिंह, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस,**

**भारत का महावाणिज्य दूतावास, हेरात (अफगानिस्तान)**

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 23 मई, 2014)

इंसपेक्टर/जीडी मंजीत सिंह, एक सुयोग्य कमांडों को अफगानिस्तान में हेरात में भारत के महावाणिज्य दूतावास (सी जी ई) के सुरक्षा प्रभारी के संवेदनशील और महत्वपूर्ण कार्य के लिए चयनित किया गया था। इनको 22.4.2013 को भर्ती किया गया और 25वीं भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के कमांडों को इनकी कमान में रखा गया।

23.05.2014 को लगभग 0325 बजे सशस्त्र फिदायीनों के एक समूह ने राकेट चालित ग्रेनेडों (आरपीजी/यूबीजीएल) और उसके बाद स्वचालित हथियारों से अशराम भारी गोलीबारी से भारत के महावाणिज्य दूतावास पर हमला कर दिया। झूठी पर तैनात राकेश कुमार, कमांडो और प्रवीण कुमार, कमांडो ने तत्काल बदले में गोलीबारी की और चौकी कमांडर निरीक्षक मंजीत सिंह और अन्य पुलिस टुकड़ियों को सतर्क कर दिया।

इंसपेक्टर/जीडी, मंजीत सिंह ने तुरंत ही खतरे का आकलन किया और पुलिस टुकड़ियों को फिदायीन आक्रमण को दृढ़तापूर्वक रोकने का आदेश दिया। विवेचित सुध-बुध और आत्मसंयम का परिचय देते हुए उन्होंने महावाणिज्य दूतावास और सिविलियन स्टाफ को सुरक्षा के बीच 'स्ट्रांग रूम' तक पहुँचाया और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। वह तत्परतापूर्वक एक कमांडो से दूसरे कमांडो के पास पहुँचे और उनका मार्गदर्शन कर उन्हें प्रोत्साहित किया। इस दौरान राकेट चालित ग्रेनेड/यूबीजीएल से निरन्तर गोलीबारी हो रही थी।

लगभग 0400 बजे, एक फिदायीन समूह सीटी की सहायता से चारदीवारी पर चढ़ गया। उनमें से एक वाणिज्य दूतावास के परिसर में घुसा जबकि अन्य फिदायीन उसकी सहायता कर रहे थे और कमान्डो को नेस्तनाबूद करने के लिए ग्रेनेड फेंक रहे थे। ग्रेनेड से भयभीत हुए बिना इंसपेक्टर/जीडी, मंजीत सिंह ने सीटी/जीडी प्रवीण कुमार और सीटी/जीडी राकेश कुमार को फिदायीन के हाथ-पैरों पर गोली मारने का आदेश दिया क्योंकि फिदायीन द्वारा अपने शरीर पर विस्फोटक सामग्री ले जाने का सन्देश था। सीटी/जीडी प्रदीप कुमार और सीटी/जीडी राकेश कुमार ने अनुकरणीय शूरवीरता का प्रदर्शन किया और दृढ़निश्चयी फिदायीनों को अपनी सटीक फायरिंग से रोके रखा तथा एक घुसपैठिए को मार गिराया और दूसरों को परिसर में घुसने से रोक दिया। इंसपेक्टर/जीडी, मंजीत सिंह ने पास की बिल्डिंग पर तैनात एचसी/जीडी वेदपाल और सीटी/जीडी, जडेजा राजेन्द्र सिंह को भी बाहर से हमलावरों को रोकने का निदेश दिया। इस प्रकार उन्होंने सीजी आई स्टाफ को बन्धक बनाने की उनकी योजना को नाकाम कर दिया।

कुछ देर बाद, इंसपेक्टर/जीडी, मंजीत सिंह ने देखा कि समीपस्थ बड़ी इमारत से यूबीजीएल और स्वचालित फायरिंग शुरू हो गई, जिससे कमान्डो के लिए जवाबी फायरिंग करना असम्भव हो गया। उसने स्वतः स्फूर्त और असाधारण साहस और शूरवीरता और सूझबूझ का प्रदर्शन किया और एचसी/जीडी वेदपाल और सीटी/जीडी जडेजा राजेन्द्र सिंह जिन्हें समीपस्थ आवासीय बिल्डिंग पर लगाया गया था, को अपनी स्थिति को सावधानीपूर्वक पुनः व्यवस्थित करने और हमलावरों को उनके स्वचालित हथियारों द्वारा प्रभावी रूप से रोके रखने का निदेश दिया। इस बीच, अफगान सुरक्षा बल जिससे अफगान नेशनल आर्मी और अफगान नेशनल पुलिस शामिल थे, भी पहुँच गया और अपना तलाशी और विध्वंस अभियान करना प्रारंभ कर दिया। बन्दूकी-लड़ाई लगातार 08 घंटे तक चलते रही और अन्य दो फिदायियों को भी एचसी/जीडी वेदपाल और सीटी/जीडी जडेजा राजेन्द्र सिंह और अफगान सुरक्षा बल की टुकड़ियों की निरन्तर फायरिंग से अन्ततोगत्वा मार गिराया गया।

समूची सैन्य कार्रवाई का पर्यवेक्षण करना अत्यंत कठिन था क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों की जान खतरे में थी, अपनी बहादुरी, अत्यधिक सूझ-बूझ; नेतृत्व और निःस्वार्थ उत्तरदायित्व के चलते इंस्पेक्टर/जीडी, मंजीत सिंह ने महावाणिज्य दूतावास और उसके स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित की, एक फिदायीन जो परिसर में प्रवेश कर गया था, को मार गिराया, दूसरों को प्रवेश करने से रोका और अन्य 02 फिदायियों को भी अफगान नेशनल बलों की सहायता से एचसी/जीडी वेदपाल और सीटी/जीडी जडेजा राजेन्द्र सिंह के माध्यम से मार गिराया और अन्ततोगत्वा आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया और राष्ट्र को बड़े नुकसान से बचा लिया।

इंस्पेक्टर/जीडी, मंजीत सिंह ने अफगान नेशनल बलों की सहायता से वीरतापूर्ण कृत्य का प्रदर्शन किया और अन्ततोगत्वा आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया तथा राष्ट्र को बड़े नुकसान से बचा लिया।

#### 4. आईसी-71174के मेजर आर. वामशी कृष्णन, ईजीनियर कोर/ 50वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 08 जून, 2014)

08 जून को 1645 बजे जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के रेसीपुर गांव के घने बसे हुए क्षेत्र में दो आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त होने के बाद, मेजर आर. वामशी कृष्णन गांव की घेराबंदी के लिए रवाना हो गये।

जब घेराबंदी की जा रही थी, दो संदिग्ध व्यक्ति आसन्न समीप के स्थान की संकरी गली में घुस गये। अफसर ने अपने साथी के साथ तेजी से उस पर विपरीत दिशा से पीछे से हमला कर दिया। मेजर आर. वामशी कृष्णन और उनके साथी के आम्ने-सामने आने पर, आतंकवादी उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। अफसर और उसके साथियों ने तुरंत जवाबी गोलीबारी की और एक आतंकवादी को घायल कर दिया। गोलियों से अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए मेजर आर वामशी कृष्णन ने उसके बाद उपलब्ध सीमित कवर का प्रयोग करते हुए घेराबंदी की और अत्यधिक नजदीक से घायल आतंकवादी को मार गिराया। इसी बीच दूसरा आतंकवादी उन पर भारी गोलीबारी करता रहा। अपनी गोलियों को प्रभावी न होता महसूस करते हुए और अपने सैनिकों पर खतरे को भांपते हुए, मेजर आर वामशी कृष्णन और उनके साथी पांच मीटर तक रेंगते हुए आतंकवादी तक गये और उसे भी मार गिराया।

मेजर आर. वामशी कृष्णन ने अदम्य साहस और अनुकरणीय नेतृत्व, युक्तियुक्त बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए दोनों खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया।

#### 5. कमांडर गोसावी कौस्तुभ विजयकुमार, एनएम, (03657-के)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 03 जुलाई, 2014)

जुलाई 2014 के दौरान अफसर को 3 जुलाई, 14 जुलाई, 18 जुलाई और 19 जुलाई 2014 को चार अलग-अलग बहादुरी और साहसपूर्ण कार्यों में लगाया गया था जहाँ वे 16 दिनों की अल्पावधि में 15 कार्मिकों की जिंदगी बचाने में सफल हुए।

3 जुलाई, 2014 को 842 स्क्वाड्रन को एक रोगी को इलाज के लिए निकाल ले जाने के कार्य पर लगाया गया था जिसे एमवी स्टार ईगल पर भयंकर पेट दर्द हो रहा था। अफसर ने डाक्टर से उसकी चिकित्सा स्थिति को सुनिश्चित करने के बाद विपरीत मौसम/कम दृश्यता/वर्षा और तीव्र हवाओं में नौसंचालन करते हुए रोगी को विन्च से निकाल लिया और फिलीपीन्स नागरिक को सफलतापूर्वक सुरक्षित स्थान पर ले गये। तत्पश्चात रोगी को त्वरित सर्जरी के लिए अस्पताल में स्थानान्तरित किया गया जिससे उसकी जान बची।

14 जुलाई, 2014 को एक दुखद समाचार एमवी प्रियंका से प्राप्त हुआ कि जहाज मुम्बई के पास रेवडांडा में सतह से टकरा गया और खतरनाक तरीके से झुक गया है जिससे उस पर सवार कर्मीदल की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। अफसर ने लगातार हो रही बरसात वाले क्षेत्र में भयंकर तरंगों वाले समुद्र में मौजूद विषम बरसाती मौसम जो इस समुद्री घटना का कारण बताया गया था, में विमान से उड़ान भरी। विमान के कैप्टन के रूप में कमांडर के वी के गोसावी ने उत्तम व्यावसायिक सक्षमता और नेतृत्व विशेषताओं का प्रदर्शन करते हुए एमवी के कर्मीदल के सभी ग्यारह सदस्यों को बचाकर अपने उत्कृष्ट उड़ान कौशल का परिचय दिया।

18 जुलाई, 2014 को लगभग 1400 बजे अंधेरी की लोटस बिल्डिंग जिसमें आग लग गई थी, में फंसे कार्मिकों को बचाने के लिए एक चेतावनी संदेश प्राप्त हुआ। बिल्डिंग में पहुंचने के बाद उसने देखा कि लगभग 450 फीट ऊंची बिल्डिंग की सबसे ऊपर की मंजिल से नीचे की मंजिल के एक कोने में फंसे हुए लोग इकट्ठा हो गए थे और वे बढ़ती लपटों के कारण उपरी मंजिल पर जाने में असमर्थ थे। इन भयंकर लपटों, तेज हवाओं और प्रचंड ताप ने हेलीकाप्टर का उस क्षेत्र तक पहुंचना कठिन बना दिया था। उड़ान के लिए विपरीत वातावरण होने के बावजूद, उन्होंने अंधेरी फायर ब्रिगेड के अग्नि शामक, मनिक ओगेल को विन्च पर उठा लिया।

19 जुलाई, 2014 को 842 स्क्वाड्रन को दो चीनी रोगियों को एम टी समुद्री क्राउन से चिकित्सा हेतु सुरक्षित स्थान पर ले जाने हेतु निदेश दिया गया था। इस ऑपरेशन को समुद्र के भीतर लगभग 20 एन एम की चेतक सक्रियात्मक रेंज के किनारे पर किया जाना था। यहां पर जहाज पर हेलीकाप्टर उतारने की कोई संभावना नहीं थी और यह बचाव कार्य, रोगियों को विंच पर उठाकर किया जाना था जो एक श्रम साध्य कार्य था क्योंकि रोगियों को कई फ्रैक्चर हुए थे। कमांडर गोसावी ने अपने अनुभव और उत्कृष्ट उड़ान कौशल से हेलीकाप्टर को एम टी समुद्री क्राउन की डेक पर निम्न उड़ान ऊंचाई पर ला दिया। चुनौती पूर्ण और साहसपूर्ण ऑपरेशन में वे हेलीकाप्टर विंच और डांचा रहित गोताखोर और ग्राउंड-टीम की सहायता से रोगी को नए तरीके से हेलीकाप्टर के भीतर ले आए।

कमांडर के वी के गोसवी ने इन बचाव अभियानों के दौरान शूरवीरता, नेतृत्व और व्यावसायिक सक्षमता का प्रदर्शन करते हुए 15 कार्मिकों की जिन्दगियों को बचाया।

6. **आईसी-69696एफ मेजर मुकुल शर्मा, चौथी बटालियन, दि पैराचूट रेजिमेंट (विशेष बल)**

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 07 अगस्त, 2014)

मेजर मुकुल शर्मा जनवरी 2010 से कश्मीर घाटी में ऑपरेशन कर रहे थे और उनके पास जबरदस्त सक्रियात्मक अनुभव था। सोर्स हैंडलिंग में उनकी सूक्ष्मदर्शिता और ऑपरेशन संचालन अद्वितीय है। उन्होंने अनेक आतंकवादियों को मार गिराने वाली बहुत सी सफल संक्रियाओं का नेतृत्व किया है।

07 अगस्त 2014 को मेजर मुकुल शर्मा को जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार क्षेत्र के सामान्य गागाडरी क्षेत्र में घुसपैठियों की सूचना प्राप्त हुई।

लगभग 1230 बजे मेजर मुकुल शर्मा ने तीन व्यक्तियों की हलचल देखी। तीनों घुसपैठियों ने तत्काल अफसर पर गोलियों की बौछार कर दी। मेजर मुकुल शर्मा ने उनका सामना किया और एक घुसपैठिए को मार गिराया। तब उन्होंने तत्काल दो आतंकवादियों को बच निकलने से रोकने के लिए अपनी टीम को पुनः तैनात किया। अफसर ने रात भर घुसपैठियों को उलझाए रखने हेतु युक्तियुक्त बुद्धिमत्ता और सूझबूझ दिखाई। अगले दिन, अफसर ने दूसरे घुसपैठिए की स्थिति की पहचान की। क्योंकि वह तलाशी दल पर अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। अपने सैनिकों को भयंकर खतरे में देखते हुए मेजर मुकुल शर्मा ने त्वरित कार्रवाई की और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए रेंगते हुए घुसपैठिए की ओर बढ़े। और उसे बहुत नजदीक से मार गिराया। जवाबी विद्रोह संक्रियाओं में अपने विशाल अनुभव के साथ मेजर मुकुल शर्मा ने संपूर्ण ऑपरेशन को चमत्कारी रूप से नियंत्रित किया जिसके परिणामस्वरूप तीसरे घुसपैठिए को मार गिराया। मेजर मुकुल शर्मा की शूरवीरतापूर्ण कार्रवाई से तीनों पाकिस्तानी घुसपैठिए मारे गए।

मेजर मुकुल शर्मा ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा से आगे बढ़कर भयंकर गोलीबारी का सामना करने में अतिनिर्भीकता, उत्कृष्ट शूरवीरता, दृढ़ संकल्प और साहस का प्रदर्शन किया।

7. **4572211ए नायक स्वरूप कुमार घोरई, 20वीं बटालियन दि महार रेजिमेंट**

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 24 अगस्त, 2014)

नायक स्वरूप कुमार घोरई जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के सामान्य गुर्दाजी क्षेत्र में तलाशी और ध्वंस ऑपरेशन हेतु ब्रिगेड घटक का एक हिस्सा थे। अकस्मात, ढोक से आतंकवादियों के एक समूह ने उनके दल पर भारी गोलीबारी की और लड़ाई शुरू हो गई। उनके पार्टी कमांडर, नायक नीरज कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। अपने दल के सदस्यों को खतरे में देखते हुए और अपना धैर्य बनाए रखते हुए नायक स्वरूप ने दल को पुनः संगठित किया और आतंकवादियों पर प्रभावी गोलीबारी की तथा नायक नीरज कुमार को उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अकस्मात ढोक से निकलकर एक आतंकवादी ने अंधाधुंध गोलीबारी की और ग्रेनेड फेंके। पूरी सूझबूझ और अत्यंत साहस दिखाते हुए नायक स्वरूप आतंकवादी के काफी नजदीक पहुंच गए और थोड़ी ही दूर से उसे मार गिराया। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए नायक स्वरूप आतंकवादियों अंधाधुंध गोलीबारी के चलते गोलियाँ और राईफलमैन गुलाम अहमद हरे की कवरिंग फायरिंग के अधीन मौत के सामने ढोक के अंदर घुस गए और बहुत नजदीकी भिड़ंत में दूसरे आतंकवादी को मार गिराया।

नायक स्वरूप कुमार घोरई ने गोलियों के सामने शूरवीरता और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और दो खूंखार विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया और दो अन्य भारी शस्त्र लिए हुए आतंकवादियों को मार गिराने में मदद भी की।

8. **आईसी-70817 के मेजर आशुतोष कुमार पाण्डेय, दि राजपूत रेजिमेंट / 44वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफल्स**

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 02 सितम्बर, 2014)

01 सितंबर, 2014 को 1800 बजे मेजर आशुतोष कुमार पाण्डेय, कंपनी कमांडर को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के एक गांव में जैश-ए-मुहम्मद के एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर और उनके दो अन्य आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई। जैश-ए-मुहम्मद का यह डिस्ट्रिक्ट कमांडर 06 जून, 2014 को पुलिस कार्मिकों को निशाना बनाने और उनके हथियार छीनने का मास्टरमाइंड था। मेजर आशुतोष ने शीघ्रता पूर्वक प्रभावी रूप से घेराबंदी करते हुए सैनिकों की तैनाती कर लक्षित घर से सिविलियनों को बाहर निकाला।

02 सितंबर, 2014 को 0730 बजे, तेरह घंटे की थका देने वाली निरंतर गोलीबारी के उपरांत मेजर आशुतोष अपने साथी संजय काली के साथ अदम्य साहस का परिचय देते हुए रेंगते हुए लक्षित घर के नजदीक पहुंचे तभी तुरंत इन पर गोली-चली। अधिकारी अपने युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते हुए गोली चलाने की दिशा में बढ़े, कवर का इस्तेमाल किया और बुद्धिमानी दिखाते हुए, खिड़की में से ग्रेनेड दाग कर एक आतंकवादी को जखमी कर दिया। जखमी आतंकवादी ने बदले में ताबड़तोड़ गोली बारी शुरू कर दी। आतंकवादी की गोलीबारी की परवाह किए बिना, यह अफसर रेंगते हुए आगे बढ़े खिड़की के निकट से कवर लिया और अचूक निशाने से गोली चलाकर एक आतंकवादी को ढेर कर

दिया। बाद में उस आतंकवादी की पहचान जैश-ए-मुहम्मद तंजीम के 'सी' कैटेगरी के आतंकवादी के रूप में की गई। सेना को घर के बिल्कुल पास देखकर दूसरे आतंकवादी ने सन्निकट कमरे से अधिकारी पर ग्रेनेड दागा और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उत्तम व्यवसायिकता, आत्म संयम और दृढ़ता दर्शाते हुए मेजर आशुतोष खिड़की की ओर बढ़े और सटीक गोलाबारी करते हुए दूसरे आतंकवादी को तुरंत मार गिराया। बाद में उस आतंकवादी की पहचान जैश-ए-मुहम्मद तंजीम के डिस्ट्रिक्ट कमांडर और ए++ कैटेगरी के आतंकवादी के रूप में हुई। जैश-ए-मुहम्मद का डिस्ट्रिक्ट कमांडर जो कि हथियार छिनने की घटना का मास्टरमाइंड था, के मारे जाने से जैश-ए-मुहम्मद तंजीम की कमर टूट गई।

मेजर आशुतोष कुमार पाण्डेय ने गोलीबारी के बीच अनुकरणीय नेतृत्व और अपनी जूटी से बढ़कर उत्कृष्ट साहस दिखाया जिसके परिणामस्वरूप जैश-ए-मुहम्मद के दो कट्टर आतंकवादी मारे गए।

9. आईसी-72464एन मेजर बिभान्शु धोंडियाल,  
5/5वीं बटालियन, दि गोरखा राईफल्स (आगामी बल)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 19 सितम्बर, 2014)

मेजर बिभान्शु धोंडियाल, 12 जून, 2010 को 5/5 गोरखा राईफल्स (फ्रंटियर फोर्स) में शामिल हुए जो वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के तंगधार जिले की नियंत्रण रेखा पर लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ईगल परिसर के भाग, ईगल-1 पोस्ट पर जूटी कर रहे थे।

दिनांक 19 सितंबर, 2014 को ईगल आतंकवादियों को परिसर में भारी शस्त्रों से लैस चार आतंकवादियों के उपस्थित होने का पता चला। मेजर धोंडियाल ने आतंकवादियों को किलिंग क्षेत्र में जाने दिया और तदोपरांत अपनी पार्टियों को उनके बचकर निकल पाने के रास्ते को रोकने का आदेश दिया। आतंकवादियों ने अपने बचाव मार्ग को बंद पाकर अपने आपको एक बड़ी चट्टान के पीछे छुपा लिया और अन्धाधुंध गोलीबारी प्रारंभ कर दी। आतंकवादियों तक किसी पार्टी के नहीं पहुंच पाने की वास्तविकता को भांपते हुए एवं अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए मेजर धोंडियाल ओट से बाहर आ गए और बाईं ओर रेंगते हुए छिपे हुए आतंकवादियों के नजदीक पहुंच गए। आतंकवादियों ने उन्हें नजदीक आते देखा और उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादियों की गोलीबारी की परवाह न करते हुए वे खड़े हो गए और ग्रेनेड दागकर आतंकवादी को मार गिराया। दूसरा आतंकवादी खड़ा हुआ और उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। मेजर धोंडियाल निर्भीकतापूर्वक खड़े रहे और नजदीक रेंज से उसे मार गिराया।

मेजर बिभान्शु धोंडियाल ने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी कर्तव्यनिष्ठा से ऊपर उठकर अपनी आत्म रक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया।

10. आईसी-70688पी मेजर अभिजय, इंजीनियर कोर, 39 (स्वतंत्र) सर्वेक्षण और अवलोकन उड़ान (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 01 अक्टूबर, 2014)

मेजर अभिजय को 01 अक्टूबर, 2014 को सक्रियात्मक क्षेत्र और वायुयान चालकों के युद्ध संचारण में शामिल होने के लिए आपरेशन आयरन फिस्ट के लिए सक्रियात्मक तैयारी समेकन उड़ानों के लिए विमान का कैप्टन नियुक्त किया गया था। विमान में उत्तर प्रदेश के बरेली जिले स्थित गाँव भरतोल की सघन आबादी वाले क्षेत्र और इंजीनियर रेजिमेंट की 54वीं यूनिट, जहाँ एक सैनिक सम्मेलन चल रहा था, के ऊपर से, उड़ान के दौरान उसके पूंछ रोटर में भारी खराबी आ गई। विमान लगभग साठ मिनट का उड़ान पूरा कर चुका था। चालक ने आपातकाल की तुरंत पहचान की, अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए, अतुलनीय साहस और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए, युक्तिपूर्वक क्षतिग्रस्त वायुयान को आबादी वाले क्षेत्र और 54 इंजीनियर रेजिमेंट से दूर ले गए। उपलब्ध थोड़े से समय में चालक ने वायु यातायात नियंत्रण टावर को विपत्ति की सूचना दी और सामांतर क्षति को न्यूनतम करने के लिए इंजन को ईंधन की आपूर्ति बंद कर दी। चालक ने अपने सैनिक भाइयों और गाँव भरतोल के लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए भयंकर क्षति के बावजूद वायुयान को सफलतापूर्वक मोड़ दिया। मेजर अभिजय ने इस प्रक्रिया में इन व्यक्तियों के जीवन की रक्षा के आगे अपने प्राणों का बलिदान कर दिया।

चालक ने यह पूर्णरूप से जानते हुए की इसमें वो अपने प्राण खो देंगे, के बावजूद क्षण भर में प्रतिक्रिया दर्शाते हुए वायुयान को मोड़ कर आबादी वाले क्षेत्र से दूर ले गए। सेवा के सिद्धांतों को उच्च रखते हुए और 54 इंजीनियर रेजिमेंट के सैनिकों और आम नागरिकों के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया।

11. 13776150डब्ल्यू पैराट्रपर बलविंदर सिंह /पहली बटालियन  
दि पैराच्यूट रेजिमेन्ट (विशेष बल) (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 27 नवम्बर, 2014)

पैराट्रपर बलविंदर सिंह साम्बा में तैनात हमलावर सैन्य टुकड़ी के दस्ती सं.3 के अग्रणी स्काउट थे जिन्हें दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को घुसपैठ करने वाले उन आतंकवादियों जो जम्मू और कश्मीर के जम्मू जिले के अरनिया क्षेत्र में कथार पश्चिम डीसीबी में सुरक्षा बलों के विरुद्ध भीषण गोलीबारी संग्राम में संलग्न थे के विरुद्ध तलाशी और मार गिराने का चार्ज सौंपा गया था।



पीका सं. 1 हवलदार पवन सिंह द्वारा की जा रही गोलीबारी की आड़ में और वीरता और अदम्य युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की किंचित प्रवाह न करते हुए, पैराट्रूपर बलविंदर सिंह छिपते हुए रेंगकर उस स्थान के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए जहाँ आतंकवादी छुपा हुआ था। खतरे को भांपते ही, आतंकवादियों ने दोनों पैराट्रूपर बलविंदर सिंह और हवलदार पवन सिंह पर एक एक करके दो ग्रेनेड दागे और नजदीक से गोलियों की बौछार करते हुए उन्हें घायल कर दिया। बुरी तरह जखमी होने, लगातार बहते खून के बावजूद नौजवान पैराट्रूपर ने अदम्य वीरता और साहस दिखाते हुए, छिपते हुए और गोलियां चलाते हुए एवं रेंगते हुए आतंकवादी के सिर में गोली मार कर उसे ढेर कर दिया। इस तरह वे भारतीय सेना के सर्वोच्च परंपराओं में शहीद होने से पूर्व अपने दल के शेष सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित कर चुके थे।

पैराट्रूपर बलविंदर सिंह ने गोलियों के बीच अदम्य पराक्रम, साहसिकता दर्शाते हुए गंभीर व्यक्तिगत खतरे की परवाह न करते हुए कर्तव्य की पराकाष्ठा से ऊपर उठकर सर्वोच्च बलिदान दिया।

12. आईसी-58918एल लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार  
24वीं बटालियन दि पंजाब रेजिमेंट (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 05 दिसम्बर, 2014)

लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार 24 पंजाब के द्वितीय कमांड थे। एक युद्ध हताहत होने के बावजूद, वे स्वेच्छा से यूनिट के साथ क्षेत्र में गए और ऑपरेशनों और आसूचना एकत्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 05 दिसंबर, 2014 को जम्मू और कश्मीर के बारापूला जिले में स्थित 31 फील्ड रेजिमेन्ट पर फिदायीन हमले को निष्क्रिय करने के लिए किए गए आपरेशन में वे एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे।

प्रातः 0545 बजे इन्होंने महारा गन क्षेत्र के पश्चिमी भाग में जहाँ पर छः आतंकवादी घुस आए थे और अन्य रैंकों के पाँच सैनिकों को हताहत कर दिया था, पर चारों ओर रोक लगाई। 0550 बजे लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार, हवलदार सुभाष चंद और नायक गुरमेल सिंह पर प्रभावी गोलाबारी होने लगी। अधिकारी ने मुहतोड़ जवाब देते हुए आतंकवादियों पर तुरंत गोलीबारी कर उन्हें निरस्त कर दिया। तदोपरान्त आतंकवादियों ने ग्रेनेड दागे और अंधाधुंध गोलाबारी कर अधिकारी को घायल कर दिया। अपने व्यक्तिगत सुरक्षा की जरा भी चिंता ना करते हुए उन आतंकवादियों को लगातार उलझाए रखा जो उनके और सैनिकों को घायल करने का इरादा रखते थे। अदम्य साहस का अनूठा प्रदर्शन करते हुए इन्होंने कारगर गोलीबारी के साथ आतंकवादी को मार गिराया जिसके परिणामस्वरूप अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने से पूर्व तदन्तर उसको समाप्त कर दिया।

लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार ने आतंकवादियों की गोलीबारी का सामना करते हुए पराक्रम और अदम्य धीरता का प्रदर्शन किया।

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 15-प्रेज/2015—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "परम विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

1. आईसी-27969एक्स लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पन्त  
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सिगनल कोर  
सेना दूर संचार इंजीनियरी कालेज, मऊ (म.प्र.)/(सेवानिवृत्त)
2. आईसी-30682एल लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंदर सिंह  
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल/ईन्फैन्ट्री  
भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून
3. आईसी- 30702एन लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कम्पोज  
बार टू अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल  
मैकेनाईज्ड ईन्फैन्ट्री
4. आईसी-31014एफ लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार सक्सेना,  
बार टू अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल  
सेना वायु रक्षा कोर

5. आईसी-31134ए लेफ्टिनेंट जनरल गौतम मूर्ति  
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल  
सेना आयुध कोर (सेवानिवृत्त)
6. आईसी-31323के लेफ्टिनेंट जनरल संजीव मधोक  
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल  
मैकेनाईज्ड इंफैन्ट्री
7. आईसी-31324एम लेफ्टिनेंट जनरल के.सुरेन्द्रनाथ, बार टू अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल,  
आर्मड कोर / मुख्यालय दक्षिणी कमान
8. आईसी-31336 एफ लेफ्टिनेंट जनरल सुनिल सदानन्द जोग, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल/  
इन्फैन्ट्री, अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चैन्नई (सेवानिवृत्त)
9. आईसी-31348डब्ल्यू लेफ्टिनेंट जनरल राजन बख्शी  
उत्तम युद्ध सेवा मेडल/ कवचित कोर, मुख्यालय मध्य कमान
10. आईसी-31638एन लेफ्टिनेंट जनरल ओम प्रकाश  
उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल/ इंफैन्ट्री
11. आईसी-31642डब्ल्यू लेफ्टिनेंट जनरल नरसिंहा प्रसाद पाठी  
विशिष्ट सेवा मेडल, ईजीनियर्स कोर
12. आईसी- 31653एच लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भल्ला  
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल/ कवचित कोर, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ
13. आईसी-31736एन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भल्ला,  
अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इंफैन्ट्री
14. आईसी- 31739एफ लेफ्टिनेंट जनरल चंगाली आनंदा कृष्णन  
उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल/ इंफैन्ट्री
15. आईसी-34036एल लेफ्टिनेंट जनरल पेरुवेम्बा रामाचन्द्रन कुमार, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल,  
तोपखाना रेजिमेंट
16. आईसी-36200एफ लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह पामा  
सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल इंफैन्ट्री (सेवानिवृत्त)
17. आईसी-36527ए लेफ्टिनेंट जनरल राकेश चन्द्र चड्ढा,  
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल/ कवचित कोर
18. एमआर- 04006वाई लेफ्टिनेंट जनरल वेद प्रकाश चतुर्वेदी,  
विशिष्ट सेवा मेडल/सेना चिकित्सा कोर
19. डीआर-10298एच लेफ्टिनेंट जनरल विमल अरोड़ा, अति विशिष्ट सेवा मेडल,  
बार टू विशिष्ट सेवा मेडल, सेना दन्त चिकित्सा कोर/दन्त सेवा महानिदेशालय
20. वाइस एडमिरल सुनील लान्बा, अति विशिष्ट सेवा मेडल (01823-टी)
21. वाइस एडमिरल आर.के. पत्तनायक  
अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल (01860-ए)
22. वाइस एडमिरल के.आर. नायर,  
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल (50575-टी)

23. एयर मार्शल राकेश कुमार जौली,  
वायु सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल (14083) उड़ान पायलट (सेवानिवृत्त)
24. एयर मार्शल परमजीत सिंह गिल,  
अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल (14097) उड़ान पायलट (सेवानिवृत्त)
25. एयर मार्शल सुब्रमण्य सुकुमार,  
अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल (14672) उड़ान (पायलट)
26. एयर मार्शल सुनील श्रीपद सोमन  
अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, एडीसी (14681) उड़ान (पायलट)
27. एयर मार्शल अरूण पुरुषोत्तम गरूड,  
वायु सेना मेडल, एडीसी (14692) उड़ान (पायलट)
28. एयर मार्शल पकीरीस्वामी कनकराज  
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल (15066)  
वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक) (सेवानिवृत्त)

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 16-प्रेज/2015—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को युद्ध स्थितियों के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "उत्तम युद्ध सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :—

1. आईसी-34385पी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार अहूजा,  
अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, बार टू विशिष्ट सेवा मेडल,  
तोपखाना रेजिमेंट/ मुख्यालय 4 कोर
2. आईसी-34392एल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह,  
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, ईन्फैन्ट्री  
मुख्यालय 15 कोर
3. आईसी-34605एन लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा  
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल/ ईन्फैन्ट्री,  
मुख्यालय 14 कोर

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 17-प्रेज/2015—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "बार टू अति विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

1. आईसी-30408एन लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार नरूला  
अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल  
तोपखाना रेजिमेंट (सेवानिवृत्त)
2. आईसी-30507डब्ल्यू लेफ्टिनेंट जनरल संजीव चोपड़ा,  
अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल/ ईन्फैन्ट्री (सेवानिवृत्त)
3. आईसी-34890एक्स लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवासन लक्ष्मी नरसिम्हन, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, ईन्फैन्ट्री

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 18-प्रेज/2015—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "अति विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

1. आईसी-30701एल लेफ्टिनेंट जनरल अभय त्रिविक्रम परनायक, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल/ईजीनियर कोर, महानिदेशक सीमा सड़क
2. आईसी-30727ए लेफ्टिनेंट जनरल तेजवन्त सिंह गिल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल ईन्फैन्ट्री (सेवानिवृत्त)
3. आईसी-30736एफ लेफ्टिनेंट जनरल जतिन्दर सिकन्दर विशिष्ट सेवा मेडल / ईजीनियर कोर
4. आईसी-31118एच लेफ्टिनेंट जनरल बलविन्द्र सिंह सच्चर, सेना मेडल, बार टू विशिष्ट सेवा मेडल/ ईन्फैन्ट्री
5. आईसी-31663एम लेफ्टिनेंट जनरल राकेश नंदन, सेना मेडल, सेना वायु रक्षा कोर
6. आईसी-34014एम लेफ्टिनेंट जनरल अमित शर्मा विशिष्ट सेवा मेडल / कवचित कोर, सामरिक बल कमान
7. आईसी-34098एल लेफ्टिनेंट जनरल हरमिन्दर जीत सिंह सचदेव, सेना मेडल/ ईन्फैन्ट्री
8. आईसी-34379एफ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाटिया, सेना वायु रक्षा कोर
9. आईसी-34410एच लेफ्टिनेंट जनरल सत्य पाल सिंह कटेवा सेना सेवा कोर
10. आईसी-34760एफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बक्शी, विशिष्ट सेवा मेडल / कवचित कोर
11. आईसी-34888ए लेफ्टिनेंट जनरल रविन्द्र प्रताप साही, ईन्फैन्ट्री
12. आईसी-35040ए लेफ्टिनेंट जनरल राकेश मोहन मित्तल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल/ईजीनियर कोर
13. आईसी-35226के लेफ्टिनेंट जनरल गोपाला कृष्णा के, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, ईन्फैन्ट्री
14. एमआर-03911एफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार उन्नी, विशिष्ट सेवा मेडल, सेना चिकित्सा कोर
15. एमआर-04317एम लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम प्रकाश वर्मा, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल/ सेना चिकित्सा कोर
16. आईसी-35153एच मेजर जनरल देवेन्द्र कुमार पुरोहित, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल/ ईन्फैन्ट्री
17. आईसी-35481डब्ल्यू मेजर जनरल राजीव नारायण विशिष्ट सेवा मेडल, कवचित कोर
18. आईसी-35941एम मेजर जनरल प्रकाश नारायण त्रिपाठी, विशिष्ट सेवा मेडल, सेना वायु रक्षा कोर
19. आईसी-37371ए मेजर जनरल अशोक कुमार, सेना सेवा कोर/ मुख्यालय पूर्वी कमान
20. आईसी-37555वाई मेजर जनरल विनोद जी खंडारे, सेना मेडल/ ईन्फैन्ट्री
21. आईसी-38266डब्ल्यू मेजर जनरल सुरिन्दर सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल / ईन्फैन्ट्री

22. आईसी-38708 के मेजर जनरल अशोक आम्ब्रे, सेना मेडल, इन्फैन्ट्री
23. आईसी-38731एक्स मेजर जनरल सुरेन्द्र सिंह लाम्बा, सेना मेडल/ सेना आयुध कोर
24. आईसी-38753डब्ल्यू मेजर जनरल जसविन्दर सिंह संधु, विशिष्ट सेना मेडल, इन्फैन्ट्री
25. आईसी-39070पी मेजर जनरल रतबीर सिंह, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, इन्फैन्ट्री
26. आईसी-39098पी मेजर जनरल गुरप्रताप सिंह ढिल्लों, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, इन्फैन्ट्री
27. आईसी-39295एक्स मेजर जनरल परमिन्दर जीत सिंह पन्नु, विशिष्ट सेना मेडल, इन्फैन्ट्री
28. आईसी-39492ए मेजर जनरल अनिल चौहान, सेना मेडल, विशिष्ट सेना मेडल, इन्फैन्ट्री
29. आईसी-39676वाई मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल/ इन्फैन्ट्री
30. आईसी-39826के मेजर जनरल त्रिलोचन सिंह सिदाना, विशिष्ट सेवा मेडल, इंजीनियर कोर
31. आईसी-40022एफ मेजर जनरल अनिल कुमार भट्ट, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इन्फैन्ट्री
32. वाइस एडमिरल जे.के. कोरडे, विशिष्ट सेवा मेडल (01912-डब्ल्यू)
33. वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला, एनएम, विशिष्ट सेवा मेडल (02312-बी)
34. वाइस एडमिरल दिनेश मुकुन्द देशपांडे, विशिष्ट सेवा मेडल (40844-ए)
35. रियर एडमिरल सुदर्शन यशवंत श्रीखण्डे (02152-आर)
36. रियर एडमिरल अजय कुमार सक्सेना, विशिष्ट सेवा मेडल (50763-डब्ल्यू)
37. रियर एडमिरल जी अशोक कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल (02470-एन)
38. रियर एडमिरल अतुल कुमार जैन, विशिष्ट सेवा मेडल (02459-एन)
39. एयर मार्शल बीरेन्द्र सिंह धनोआ, युद्ध सेवा मेडल, वायु सेना मेडल (15405) उड़ान (पायलट)
40. एयर मार्शल सुखचैन सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल (15808) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
41. एयर वाइस मार्शल राजन परादायिल जॉर्ज (15751) परिभारिकी
42. एयर वाइस मार्शल चम्बाला काराई रंजन, विशिष्ट सेवा मेडल (16015) चिकित्सा
43. एयर वाइस मार्शल रघुनाथ नाम्बियार वायु सेना मेडल एवं बार (16378) उड़ान (पायलट)
44. एयर वाइस मार्शल विवेक राम चौधरी, वायु सेना मेडल, (16978) उड़ान (पायलट)
45. एयर कमोडोर सूर्यकांत चिंतामण चाफेकर, शौर्य चक्र (17013) उड़ान (पायलट)
46. एयर कमोडोर प्रवीण रामचन्द्र नवलकर (17173) उड़ान (पायलट)
47. एयर कमोडोर कृष्ण अयंगर रवि, विशिष्ट सेवा मेडल (17674) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
48. एयर कमोडोर प्रशान्त एकनाथ पतंगे, युद्ध सेवा मेडल, वायु सेना मेडल (17706) उड़ान (पायलट)

49. एयर कमोडोर सुनिल कुमार, युद्ध सेवा मेडल (17713) उड़ान (पायलट)
50. एयर कमोडोर अजय राठौर, वायु सेना मेडल (18258) उड़ान (पायलट)
51. एयर कमोडोर बालाकृष्णन बालाचन्द्रन, वायु सेना मेडल (18561) उड़ान (पायलट)
52. एयर कमोडोर सूरत सिंह, वायु सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल (18563) उड़ान (पायलट)
53. एयर कमोडोर हरदीप बेंस, विशिष्ट सेवा मेडल (19180) उड़ान (पायलट)

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 19-प्रेज/2015- राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को युद्ध स्थितियों के दौरान उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "युद्ध सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

1. आईसी-38300एल मेजर जनरल विवेक प्रताप सिंह, ईन्फैन्ट्री/मुख्यालय 25 ईन्फैन्ट्री डिवीजन
2. आईसी-39465डब्ल्यू मेजर जनरल अमरजीत सिंह बेदी, विशिष्ट सेवा मेडल, ईन्फैन्ट्री/ मुख्यालय 3 ईन्फैन्ट्री डिवीजन
3. आईसी-39522एम मेजर जनरल जयवीर सिंह नेगी, बार टू विशिष्ट सेवा मेडल, ईन्फैन्ट्री/मुख्यालय 8 पर्वतीय डिवीजन
4. आईसी-39929एच मेजर जनरल सरनजीत सिंह ईन्फैन्ट्री/मुख्यालय 25 ईन्फैन्ट्री डिवीजन
5. आईसी-42954एम ब्रिगेडियर अचुतन प्रमोद कुमार ईन्फैन्ट्री/12वीं सेक्टर राष्ट्रीय राईफल
6. आईसी-43914एक्स ब्रिगेडियर राजीव कुमार माहता, सेना मेडल, दि कुमाऊं रेजिमेंट/मुख्यालय 40 पर्वतीय ब्रिगेड
7. आईसी-44065एन ब्रिगेडियर मनजिंदर सिंह / दि मद्रास रेजिमेंट, मुख्यालय 121 (स्वतंत्र) ईन्फैन्ट्री ब्रिगेड ग्रुप
8. आईसी-44261एन ब्रिगेडियर ब्रिज गोपाल, सेना मेडल दि डोगरा रेजिमेंट/मुख्यालय 3 सेक्टर राष्ट्रीय राईफल
9. आईसी-44527पी ब्रिगेडियर अशोक सिंह, सेना मेडल दि मद्रास रेजिमेंट/मुख्यालय 190 पर्वतीय ब्रिगेड
10. आईसी-44545एक्स ब्रिगेडियर अनिंदय सेनगुप्ता दि पंजाब रेजिमेंट/120वीं ईन्फैन्ट्री ब्रिगेड
11. आईसी-47020वाई ब्रिगेडियर दिनेश सिंह राणा, सेना मेडल, दि गढ़वाल राइफल/मुख्यालय 11 पर्वतीय ब्रिगेड
12. आईसी-47223एच ब्रिगेडियर संजीव चौहान, दि गोरखा राईफल/मुख्यालय 73 पर्वतीय ब्रिगेड
13. आईसी-55822एक्स कर्नल मुनिन्द्र नाथ राय दि गोरखा राईफल/42वीं बटालियन, दि राष्ट्रीय राईफल

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 20-प्रेज/2015— राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "बार टू विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

1. आईसी-35586ए मेजर जनरल भूपेन्द्र सिंह सरोया,  
विशिष्ट सेवा मेडल/ मैकेनाईज्ड इंफैन्ट्री
2. आईसी-35929एल मेजर जनरल विनोद वशिष्ठ, विशिष्ट सेवा मेडल,  
तोपखाना रेजिमेंट
3. एमआर-04173पी मेजर जनरल कोयम्बटूर सिवसुबमणियन नारायणन,  
बार टू विशिष्ट सेवा मेडल, सेना चिकित्सा कोर
4. एमआर-04889एन ब्रिगेडियर प्रशान्त भारद्वाज, विशिष्ट सेवा मेडल  
सेना चिकित्सा कोर

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 21-प्रेज/2015- राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए " विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :—

1. आईसी-34148एल लेफ्टिनेंट जनरल राजेन्द्र प्रसाद राय,  
सेना सेवा कोर
2. आईसी-35796ए मेजर जनरल कंवल जीत सिंह,  
सेना मेडल, इलेक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियर कोर
3. आईसी-35987पी लेफ्टिनेंट जनरल दीवान रवीन्द्रनाथ सोनी  
इंफैन्ट्री
4. आईसी-37795डब्ल्यू लेफ्टिनेंट जनरल विश्वम्भर सिंह  
इंजीनियर कोर
5. वी-00347एम लेफ्टिनेंट जनरल जगविंदर सिंह  
रिमाऊंट वेटरनेरी कोर
6. आईसी-38528एफ मेजर जनरल कपिल कुमार अग्रवाल,  
इलेक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियर कोर
7. आईसी-38641डब्ल्यू मेजर जनरल जय शंकर मेनन  
इंफैन्ट्री
8. आईसी-38750एच मेजर जनरल मनोज मुकुंद नरवण, सेना मेडल, इंफैन्ट्री / मुख्यालय महानिरीक्षक असम  
राइफल्स (उत्तर)
9. आईसी-38879डब्ल्यू मेजर जनरल अश्वनी कुमार,  
सेना वायु रक्षा कोर
10. आईसी-34423ए मेजर जनरल आलोक देव, सेना मेडल  
तोपखाना रेजिमेंट/ मुख्यालय पूर्वी कमान
11. आईसी-34758एक्स मेजर जनरल अरविंद कुमार राठी, सेना मेडल, तोपखाना रेजिमेंट
12. आईसी-35167एच मेजर जनरल यशवंत सिंह  
इलेक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियर कोर/ ईएमई स्कूल, वडोदरा
13. आईसी-35566एम मेजर जनरल मावेलिमणिल जौन मैथ्यू  
सेना मेडल/तोपखाना रेजिमेंट, मुख्यालय पूर्वी कमान

14. आईसी-37855ए मेजर जनरल तिरवानी परसाद  
जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट
15. आईसी-38305के मेजर जनरल करुण कुमार सिन्हा, सेना मेडल, ईन्फैन्ट्री
16. आईसी-38590एन मेजर जनरल संजीव वर्मा  
कवचित कोर
17. आईसी-38746ए मेजर जनरल अरूप सेन  
सिगनल्स कोर/ मुख्यालय पूर्वी कमान
18. आईसी-38747एच मेजर जनरल राम किशन साईवाल  
सेना आयुध कोर
19. आईसी-39521के मेजर जनरल योगेश त्रिलोकचंद जैन,  
तोपखाना रेजिमेंट
20. आईसी-39832एक्स मेजर जनरल गोपाल कृष्ण चोपड़ा  
सेना शिक्षा कोर
21. आईसी-39871डब्ल्यू मेजर जनरल संतोष कुमार उपाध्या, सेना मेडल,  
ईन्फैन्ट्री / मुख्यालय 59 ईन्फैन्ट्री डिवीजन
22. आईसी-39966डब्ल्यू मेजर जनरल विरिंदर सिंह रन्धावा,  
इलेक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियर कोर
23. आईसी-40007एम मेजर जनरल येन्दुरू वेंकटा कृष्णा मोहन, सेना मेडल,  
ईन्फैन्ट्री / मुख्यालय 17 पर्वतीय डिवीजन
24. आईसी-40293वाई मेजर जनरल आलोक सिंह कलेर  
कवचित कोर
25. आईसी-40302पी मेजर जनरल रविन्द्र पाल सिंह  
मैकेनाईज्ड ईन्फैन्ट्री
26. वी-00359एच मेजर जनरल अमोलक जीत सिंह,  
रिमाऊंट वेटरनेरी कोर
27. आईसी-39751एक्स ब्रिगेडियर हरपाल सिंह, कवचित कोर
28. आईसी-40097वाई ब्रिगेडियर राजन कोचर  
सेना आयुध कोर/ केन्द्रीय आयुध डिपो, देहू रोड
29. आईसी-40534एन ब्रिगेडियर मिलिंद एन.भुरके  
सिगनल्स कोर
30. आईसी-40568एफ ब्रिगेडियर के उमामहेश्वर,  
तोपखाना रेजिमेंट
31. आईसी-40623एम ब्रिगेडियर प्रमोद कुमार सिंह  
तोपखाना रेजिमेंट
32. आईसी-40679वाई ब्रिगेडियर अमित कुमार सान्याल  
कवचित कोर
33. आईसी-40716एफ ब्रिगेडियर मनोज पाण्डे  
इंजीनियर्स कोर
34. आईसी-41105वाई ब्रिगेडियर इंदीवर सूद,  
इंजीनियर्स कोर



35. आईसी-41223एम ब्रिगेडियर रविन्द्र सिंह रावत,  
4 गोरखा राईफल
36. आईसी-41507डब्ल्यू ब्रिगेडियर अरविंद कपूर,  
ब्रिगेड ऑफ दि गार्ड्स
37. आईसी-41605डब्ल्यू ब्रिगेडियर राजबंस पाल सिंह कहलों,  
तोपखाना रेजिमेंट
38. आईसी-41896एफ ब्रिगेडियर राजेन्द्र वी देसाई  
महार रेजिमेंट
39. आईसी-41926एन ब्रिगेडियर अजय एच चौहान,  
मैकेनाईज्ड इन्फैन्ट्री
40. आईसी-42171एन ब्रिगेडियर समीर कल्ला  
2 नागा रेजिमेंट
41. आईसी-42315एल ब्रिगेडियर परमजीत सिंह  
सेना आयुध कोर
42. आईसी-42561डब्ल्यू ब्रिगेडियर गोपी अय्यर  
तोपखाना रेजिमेंट
43. आईसी-42831ए ब्रिगेडियर रूपिन्द्र सिंह  
तोपखाना रेजिमेंट
44. आईसी-43245के ब्रिगेडियर एन एस राजा सुब्रामणी,  
सेना मेडल, गढ़वाल राइफल्स
45. आईसी-43364ए ब्रिगेडियर सुखविन्दर सिंह खारा  
आसूचना कोर
46. आईसी-43658एन ब्रिगेडियर हरि सिंह  
ईजीनियर्स कोर
47. आईसी-43702एम ब्रिगेडियर पातंजलि राहुल  
सेना वायु रक्षा कोर
48. आईसी-44083डब्ल्यू ब्रिगेडियर संजय पुरी  
दि गढ़वाल राइफल्स
49. आईसी-44090एम ब्रिगेडियर विनय धीमन  
तोपखाना रेजिमेंट
50. आईसी-44095एल ब्रिगेडियर अनिल कुमार कासिद  
तोपखाना रेजिमेंट
51. आईसी-44175एच ब्रिगेडियर सुनील मोरेश्वर लिमये  
दि सिख रेजिमेंट
52. आईसी- 44504एन ब्रिगेडियर गुरबीरपाल सिंह  
दी पैराच्यूट रेजिमेंट
53. आईसी- 47013एच ब्रिगेडियर दीपक मेहरा, कीर्ति चक्र  
दि गोरखा राईफल
54. आईसी-48067डब्ल्यू ब्रिगेडियर राशिम वाली  
सिख लाईट इन्फैन्ट्री

55. आईसी-48643 पी ब्रिगेडियर सुधीर कुमार शर्मा  
तोपखाना रेजिमेंट
56. एमआर-04141एम ब्रिगेडियर मनोमौय गांगुली,  
सेना चिकित्सा कोर
57. एमआर-04790एक्स ब्रिगेडियर संजय बागची  
सेना चिकित्सा कोर/सशस्त्र बल चिकित्सा स्टोर्स डिपो
58. आईसी-46768एन कर्नल समरेन्द्र प्रताप  
2वीं बटालियन दि बिहार रेजिमेंट
59. आईसी-48444एफ कर्नल आनन्द कुमार के.वी  
इलेक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियर कोर
60. आईसी-48625एम कर्नल गौतम चौहान  
1वीं बटालियन दि गोरखा राईफल्स
61. आईसी-49636एल कर्नल चरनजीव मंजू  
डोगरा रेजिमेंट
62. आईसी-49884एफ कर्नल सुमेश सेठ  
दि जम्मू और कश्मीर लाइट इंफैन्ट्री
63. आईसी-50060एल कर्नल राजीव चावला  
ग्रेनेडियर्स
64. आईसी-50279ए कर्नल धर्मराज राय  
दि कुमाऊं रेजिमेंट
65. आईसी-50298एल कर्नल पंकज फोतेदार  
सिगनल्स कोर
66. आईसी-50583के कर्नल चरण सिंह बसवाणा,  
इंजीनियर कोर
67. आईसी-52650एच कर्नल सुमोन कुमार घोष,  
इंजीनियर कोर/101 इंजीनियर रेजिमेंट
68. आईसी-53498एम कर्नल कर्वे आनंद अनिल  
102 इंजीनियर रेजिमेंट
69. आईसी-57187डब्ल्यू कर्नल संजीव चोपड़ा  
25वीं बटालियन दि पंजाब रेजिमेंट
70. आईसी-57502एफ कर्नल डीकेएस सहरावत, वीर चक्र  
2 नागा रेजिमेंट
71. एमआर-05688एफ कर्नल नरेन्द्र कोतवाल  
सेना चिकित्सा कोर
72. एमआर-05813ए कर्नल उपेन्द्र नाथ झींगन  
सेना चिकित्सा कोर
73. एमआर-06191डब्ल्यू कर्नल अमिता चतुर्वेदी  
सेना चिकित्सा कोर
74. डीआर-10446एच कर्नल बरादा प्रसन्ना पन्डा  
सेना दंत कोर

75. आईसी-57758के लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल मान, सेना विमानन कोर, 34 आर एंड ओ फ्लाइट
76. आईसी-61974पी लेफ्टिनेंट कर्नल चिन्मय परीख  
इलेक्ट्रोनिक्स और यांत्रिक इंजीनियर कोर,
77. रियर एडमिरल बलदेव राज तनेजा, एनएम (50711-ए)
78. रियर एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता (02782-वाई)
79. कमोडोर श्रीनिवास चिकरूर (50860-आर)
80. कमोडोर अजय कुमार पाण्डे (02484-डब्ल्यू)
81. कमोडोर पुनीत कुमार बहल (02741-बी)
82. कमोडोर कपिल मोहन धीर (02785-बी)
83. सर्जन कमोडोर नवीन चावला (75402-टी)
84. कमोडोर बी आर प्रकाश (03010-आर)
85. कमोडोर जतिन्दर सिंह (03218-एन)
86. कमोडोर बी सिक्कुमार (50992-आर)
87. कमोडोर अतुल आनन्द (03247-बी)
88. कमोडोर दीपक बंसल (41343-के)
89. कैप्टन सायरल थामस (41552-के)
90. सर्जन कैप्टन रोचन पंत (75453-एच)
91. कैप्टन दलीप सिंह (04174-के)
92. पी सजायन नायर एमसीपीओ II, सीडी I, 167349-आर
93. एयर वाइस मार्शल जय वीर सिंह (15758) परिभारिकी (सेवानिवृत्त)
94. एयर कमोडोर ओम प्रकाश तिवारी (16678) उड़ान (नेवीगेटर)
95. एयर कमोडोर किशोरी लाल यादव (16931) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
96. एयर कमोडोर संजय भटनागर वायु सेना मेडल (17363) उड़ान (पायलट)
97. एयर कमोडोर बलविन्दर सिंह सभरवाल (17374) प्रशासन / एयर ट्रैफिक कंट्रोलर
98. एयर कमोडोर संजय अग्रवाल (17420) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
99. एयर कमोडोर पिजुष मुखर्जी (17671) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
100. एयर कमोडोर श्रीनिवासा राव नलवाड़े वेंकटाराव (17920) लेखा
101. एयर कमोडोर पवन कुमार मोहे (18099) उड़ान (पायलट)
102. एयर कमोडोर अनुराग जोशी (18280) उड़ान (पायलट)
103. ग्रुप कैप्टन विनोद मलिक  
(18133) प्रशासन / एयर ट्रैफिक कंट्रोलर
104. ग्रुप कैप्टन भास्कर नन्दी (18188) चिकित्सा
105. ग्रुप कैप्टन राजापानतुला सुब्बाराव (18438) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)

106. ग्रुप कैप्टन अजय सिंह पठानिया (18594) उड़ान (पायलट)
107. ग्रुप कैप्टन राजेश नारायन मेडीकेरी (18730) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
108. ग्रुप कैप्टन संजय कुमार श्रीवास्तव (19128) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
109. ग्रुप कैप्टन पडिप्पुरक्कल तेक्केतिल कृष्णापिल्लई श्रीकुमार,  
(19722) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
110. ग्रुप कैप्टन कोन्डेगलारा अबू अहमद संजीव  
(20227) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
111. ग्रुप कैप्टन समीर जे पेन्डसे, वायु सेना मेडल  
(20495) उड़ान (पायलट)
112. ग्रुप कैप्टन संजीव ढाका  
(20600) प्रशासन/फाइटर कंट्रोलर
113. ग्रुप कैप्टन पी वी एन रवी माधव सरमा  
(20616) परिभारिकी
114. ग्रुप कैप्टन नंद कुमार नायर  
(20680) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
115. ग्रुप कैप्टन हर्ष बेहल  
(20863) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
116. ग्रुप कैप्टन देवेन्द्र पी हिरानी  
(21019) उड़ान (पायलट)
117. ग्रुप कैप्टन सत्यमूर्ती रामनाथन  
(21078) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
118. ग्रुप कैप्टन गुरशरन सिंह मथारू  
(21276) उड़ान (पायलट)
119. ग्रुप कैप्टन अभिजीत प्रभाकर सराफ  
(21427) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
120. ग्रुप कैप्टन आशीष सिंह, वायु सेना मेडल  
(21517) उड़ान (पायलट)
121. ग्रुप कैप्टन वासुदेवन राजलक्ष्मी सनिल  
(21523) उड़ान (पायलट)
122. ग्रुप कैप्टन इंद्रजीत सिंह हंसपाल  
(21961) प्रशासन / एयर ट्रेफिक कंट्रोलर
123. ग्रुप कैप्टन पार्थसारथी घाना  
(23452) चिकित्सा
124. स्क्वाड्रन लीडर गोपालाकृष्णन जयचन्द्रन  
(28293) प्रशासन

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 22-प्रेज/2015- राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "सेना मेडल / आर्मी मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:—

1. आईसी-56184 डब्ल्यू ले. कर्नल गालबा शिवा किरण  
कुमार, सेना विमानन कोर, 2051 सेना विमानन स्क्वाड्रन (यूटीलिटि हेलीकॉप्टर)

2. आईसी-59579एच ले. कर्नल अकूला बालाकृष्णा,  
ईन्जीनियर्स कोर / राष्ट्रीय सुरक्षा गारद
3. आईसी-62163डब्ल्यू मेजर रमन झा,  
7वीं बटालियन दि जाट रेजिमेन्ट
4. आईसी-64202एच मेजर पी.एन.सुजय कुमार,  
18वीं बटालियन दि महार रेजिमेन्ट
5. आईसी-68291के मेजर अभिनव बोस,  
मैकेनाइज्ड ईन्फैन्ट्री/21वीं दि असम राईफल्स
6. आईसी-68473एक्स मेजर गौरव दिक्षित  
2 बटालियन दि राजपूत रेजिमेन्ट
7. आईसी-69642ए मेजर चन्नाबासवेश के गुन्डे,  
दि महार रेजिमेन्ट / 1 बटालियन दि राष्ट्रीय राईफल्स
8. आईसी-70694एच मेजर हितेश कुमार भारद्वाज,  
ईन्जीनियर्स कोर / 10वीं बटालियन दि असम राईफल्स
9. आईसी-71200ए मेजर सुरिन्दर जीत सिंह,  
ईन्जीनियर्स कोर / 44वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफल्स
10. आईसी-71641डब्ल्यू मेजर विकास वारयानी  
इलेक्ट्रोनिक्स और मेकेनिकल ईन्जीनियर कोर / 39 (स्वतंत्र) सर्वेक्षण और अवलोकन उड़ान (मरणोपरांत)
11. आईसी-72942एम मेजर धुर्व्रत काकोटी  
दि जाट रेजिमेन्ट / 1 बटालियन दि असम रेजिमेन्ट
12. आईसी-73243एन मेजर जावेद अख्तर  
ब्रिगेड ऑफ दि गार्ड्स / 21वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफल्स
13. आईसी-74971ए मेजर दलवीर मलिक  
7वीं बटालियन दि जाट रेजिमेन्ट
14. एससी-00568वाई मेजर रूप सिंह नेगी  
5/5वीं बटालियन दि गोरखा राईफल्स (आगामी बल)
15. आईसी-71436पी कैप्टन अविनाश यशवंत सोमवंशी, सेना विमानन कोर  
39 (स्वतंत्र) सर्वेक्षण और अवलोकन उड़ान (मरणोपरांत)
16. आईसी-75598एक्स कैप्टन कपिल तोमर  
सेना सेवा कोर / 19वीं बटालियन दि डोगरा रेजिमेन्ट
17. आईसी-75650पी कैप्टन अभिषेक अह्लावत,  
इलेक्ट्रोनिक्स और मेकेनिकल ईन्जीनियर कोर / 2 बटालियन दि राजपूत रेजिमेन्ट
18. आईसी-76764एम कैप्टन रणजीत केपी  
सेना सेवा कोर / 2 बटालियन दि बिहार रेजिमेन्ट
19. एसएस-46014वाई कैप्टन अंकुर त्यागी  
इलेक्ट्रोनिक्स और यांत्रिक ईन्जीनियर कोर / 19वीं बटालियन दि डोगरा रेजिमेन्ट

20. आईसी-76702एम लेफ्टिनेंट तरूण वर्मा,  
3 जम्मू और कश्मीर राईफल्स
21. जेसी-19441एल सूबेदार नैना सिंह रावत,  
1 बटालियन दि असम राईफल्स
22. जेसी-460478पी नायब सूबेदार कंकनवाडी दुरधूंडी इरप्पा,  
19 बटालियन दि मराठा लाईट इन्फैन्ट्री (मरणोपरांत)
23. जेसी-618130एच नायब सूबेदार भिम बहादुर गुरुंग  
5/5 वीं बटालियन दि गोरखा राईफल्स (आगामी बल)
24. 2688666एच हवलदार नौरंग राम चाहर,  
23वीं बटालियन दि ग्रेनेडियर्स
25. 2793421एल हवलदार जाधव सांदिप बाबासाहेब  
19वीं बटालियन दि मराठा लाईट इन्फैन्ट्री
26. 3998387ए हवलदार विजय सिंह  
20वीं बटालियन दि राजपूताना राईफल्स
27. 4074978एच हवलदार पुष्कर सिंह,  
7वीं बटालियन दि गढ़वाल राईफल्स
28. 4568082एन हवलदार दीपक तोमर,  
20वीं बटालियन दि महार रेजिमेन्ट
29. 4190345एन नायक खेम चन्द्रा,  
दि कुमाऊं रेजिमेन्ट / 50वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफल्स(मरणोपरांत)
30. 4477647ए नायक जगशीर सिंह  
5वीं बटालियन दि सिख लाईट इन्फैन्ट्री(मरणोपरांत)
31. 4478960एक्स नायब कुलविन्दर सिंह  
5वीं बटालियन दि सिख लाईट इन्फैन्ट्री(मरणोपरांत)
32. 5047156एक्स दामोदर थापा  
तीसरी बटालियन दि पहली गोरखा राईफल्स(मरणोपरांत)
33. 3195822एक्स लांस नायक शंकर लाल बोचलिया  
20वीं बटालियन दि जाट रेजिमेन्ट (मरणोपरांत)
34. 4085106ए लांस नायक केशर सिंह  
7वीं बटालियन दि गढ़वाल राईफल्स
35. 15334151डब्ल्यू लांस अरूण एस  
3 इन्जीनियर रेजिमेन्ट (मरणोपरांत)
36. 15619838एफ लांस नायक चेनाबसप्पा पुजार,  
ब्रिगेड ऑफ दि गार्ड्स / 21वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफल्स
37. 2803346एच सिपाही भिकले उत्तम बालू,  
2 बटालियन दि मराठा लाईट रेजिमेन्ट (मरणोपरांत)

38. 2806850एन सिपाही डोके गणेश दत्तत्रय,  
दि मराठा लाईट इन्फैन्ट्री / 41 बटालियन दि राष्ट्रीय राईफलस
39. 4005533एल सिपाही बलबीर दास,  
दि डोगरा रेजिमेन्ट / 40वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफलस (मरणोपरांत)
40. 4005856एन सिपाही ओम प्रकाश  
19वीं बटालियन दि डोगरा रेजिमेन्ट
41. 4578844के सिपाही रघुविन्दर सिंह  
18वीं बटालियन दि महार रेजिमेन्ट
42. 5049805डब्ल्यू राईफलमैन रेकम बहादुर थापा मगर  
दि गोरखा राईफलस / 15वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफलस
43. 9113484एम राईफलमैन मीर ओवाईस हुसैन  
जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री  
50वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफलमैन(मरणोपरांत)
44. 12974757एक्स राईफलमैन मूश्ताक अहमद मीर  
दि जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री  
53वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफलस(मरणोपरांत)
45. जी/5022003एच राईफलमैन ताखेलामबम गोकिल सिंह  
13वीं बटालियन दि असम राईफलस(मरणोपरांत)
46. 4091526डब्ल्यू पाराटूपर मुकेश सिंह  
दि पाराच्यूट रेजिमेंट / 3वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफलस
47. 2708314पी ग्रेनेडियर राहुल कुमार  
23वीं बटालियन दि ग्रेनेडियर्स
48. 15207857एम गन्नर मनप्रीत सिंह  
तोपखाना रेजिमेन्ट / 31फील्ड रेजिमेन्ट (मरणोपरांत)

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 23-प्रेज/2015- राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "नौसेना मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. कमांडर कुन्तल वाधवा (41909-वाई) (मरणोपरांत)
2. विष्णु पी उन्नी, सी। आरसी III (224696- जेड) (मरणोपरांत)

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 24-प्रेज/2015- राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "वायु सेना मेडल / एयर फोर्स मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:—

1. विंग कमांडर मनीश कुमार रॉय (22980) उड़ान (पायलट)
2. विंग कमांडर सौरभ शर्मा (23209) उड़ान (पायलट)

3. विंग कमांडर अमित जैन (25110) उड़ान (पायलट)
4. विंग कमांडर अनूप शर्मा (25310) उड़ान (पायलट)
5. विंग कमांडर पंकज शर्मा (25628) उड़ान (पायलट)
6. स्क्वाड्रन लीडर मनतेज सिंह सोमल (26996) उड़ान (पायलट)
7. स्क्वाड्रन लीडर सौरभ रघुवंशी (27955) उड़ान (पायलट) (मरणोपरांत)
8. स्क्वाड्रन लीडर कपिल करीम (29719) उड़ान (पायलट)
9. 781094 सार्जेंट रविंद्र कुमार जाखड़, पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर
10. 918575 कार्पोरल मोमोचा निंग यौजाम, भारतीय वायु सेना (सुरक्षा)
11. पीए नं. 42477 श्री रविन्दर कुमार लीडिंग हैन्ड फायरमैन (मरणोपरांत)

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 25-प्रेज/2015—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए "सेना मेडल / आर्मी मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:—

1. आईसी-38928एन मेजर जनरल, अनिल प्रहलाद वाम तोपखाना रेजिमेन्ट
2. आईसी-35955एम मेजर जनरल अमरीक सिंह, ईन्फैन्ट्री
3. डीआर-10328पी मेजर जनरल गोपाल कृष्ण थपलियाल, सेना दन्त चिकित्सा कोर / कमान सैन्य डेन्टल सेन्टर, पश्चिमी कमान
4. आईसी-40078एन ब्रिगेडियर अमरदीप सिंह सिद्धु विशिष्ट सेवा मेडल / सेना विमानन कोर
5. आईसी-40685एम ब्रिगेडियर राज शुक्ला तोपखाना रेजिमेन्ट
6. आईसी-41547एक्स ब्रिगेडियर रोहित गुप्ता मैकेनाइज्ड ईन्फैन्ट्री
7. आईसी-41595एक्स ब्रिगेडियर मनोज कुमार सिंह यादव, सेना सेवा कोर
8. आईसी-41960एन ब्रिगेडियर अश्वनी कुमार चनन, तोपखाना रेजिमेन्ट
9. आईसी-43126एन ब्रिगेडियर प्रदीप सोफत् दि सिख रेजिमेन्ट
10. आईसी-44498एल ब्रिगेडियर राम चन्द्र तिवारी दि कुमाऊं रेजिमेन्ट / मुख्यालय 112 पर्वतीय ब्रिगेड
11. आईसी-44572एफ ब्रिगेडियर संजय ठाकरान, दि गढ़वाल राईफल्स / मुख्यालय, 10 ईन्फैन्ट्री ब्रिगेड
12. आईसी-47139एच ब्रिगेडियर पुष्पेन्द्र पाल सिंह, दि पैराच्यूट रेजिमेन्ट / मुख्यालय, 104 ईन्फैन्ट्री ब्रिगेड



13. आईसी-46034एम कर्नल देवेन्द्र कुमार  
ब्रिगेड ऑफ दि गार्डस / मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टॉफ
14. आईसी-48525एफ कर्नल विकास रोहेला  
ईजीनियर कोर / मुख्यालय, छत्तीसगढ़ और ओडिशा उपक्षेत्र
15. आईसी-49459डब्ल्यू कर्नल संजीव रंजन शर्मा,  
जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री
16. आईसी-49114पी कर्नल कोंगटि सोमाशंकर  
दि जाट रेजिमेन्ट
17. आईसी-50313पी कर्नल मोहित त्रिवेदी  
दि ग्रेनेडियर्स
18. आईसी-50404वाई कर्नल अनिरबान दत्ता  
9वीं बटालियन दि गोरखा राईफल्स
19. आईसी-52021एल कर्नल अरूपेन्दु गुप्ता  
दि ग्रेनेडियर्स / आर्मी वार कॉलेज, मऊ
20. आईसी-52764एन कर्नल सुशील कुमार चौधरी  
सिग्नल कोर / 56 इन्फैन्ट्री डिविजन सिग्नल रेजिमेन्ट
21. आईसी-52885पी कर्नल सचिन दुबे  
सेना विमानन कोर / 664 सेना विमानन स्क्वाड्रन (आर एण्ड ओ)
22. आईसी-52930डब्ल्यू कर्नल विकास कपरेट,  
सेना विमानन कोर / 662 सेना विमानन स्क्वाड्रन (आर एण्ड ओ)
23. आईसी-53250एच कर्नल नामैराकपम रोमिओ सिंह,  
2 बटालियन दि राजपूत रेजिमेन्ट
24. आईसी-53444एल कर्नल अमित शर्मा  
4 बटालियन दि गोरखा राईफल्स
25. आईसी-55716वाई कर्नल राजदीप सिंह लेहल  
दि मराठा लाइट इन्फैन्ट्री / 17वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफल्स
26. आईसी-58301पी कर्नल अरूण प्रताप सिंह भदौरिया,  
दि नागा रेजिमेन्ट / 50वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफल्स
27. आईसी-56636एन कर्नल राहुल मछराल  
तोपखाना रेजिमेन्ट / 111 रॉकेट रेजिमेन्ट
28. आईसी-56426एन ले.कर्नल दिग्विजय सिंह विष्ट  
सेना विमानन कोर / 662 सेना विमानन स्क्वाड्रन (आर एण्ड ओ)
29. आईसी-56645पी लेफ्टिनेंट कर्नल नवनीत चेल  
सेना विमानन कोर/204 सेना विमानन स्क्वाड्रन (यू एच)
30. आईसी-57877ए लेफ्टिनेंट कर्नल अनीश किशोर  
सेना विमानन कोर / 37वीं स्वतंत्र (आर एण्ड ओ) उड़ान
31. आईसी-59086एफ लेफ्टिनेंट कर्नल अमित कुमार  
सेना विमानन कोर / 9वीं (स्वतंत्र) आर एण्ड ओ उड़ान

32. आईसी-59656एम लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित देवरानी  
सेना विमानन कोर / 204 सेना विमानन स्कवाड्रन (यूएच)
33. आईसी-59732एन लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकर अशोक पिल्लै  
2 बटालियन दि सिख लाईट इन्फैन्ट्री
34. आईसी-60650एक्स मेजर बोधिसत्व चक्रवर्ति  
10वीं बटालियन दि असम रेजिमेन्ट
35. आईसी-62116वाई मेजर उदयजीत सिंह जसवाल  
तीसरी बटालियन दि जम्मू और कश्मीर राईफल्स
36. आईसी-62339डब्ल्यू मेजर बिक्री शर्मा  
तोपखाना रेजिमेन्ट/29वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफल्स
37. आईसी-68100के मेजर आनन्द बोहरा, आसूचना कोर  
3 कोर आसूचना और निगरानी ईकाई
38. आईसी-70843एल मेजर विपिन चंद्र डंड्रियाल  
3 बटालियन दि 11वीं गोरखा राईफल्स
39. आईसी-63704वाई मेजर अखिल सिंघाल  
21 ईजीनियर रेजिमेन्ट
40. आईसी-63987एल मेजर आनन्द सिंह बिष्ट  
दि जाट रेजिमेंट , 5वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफल्स
41. जेसी-378410एफ सूबेदार बगाने राजेन्द्र शिवाजी  
सिग्रल कोर (मरणोपरान्त)
42. जेसी-635217ए नायब सूबेदार जीतू राय  
11वीं बटालियन दि गोरखा राईफल्स / आर्मी मार्क्समैनशिप ईकाई  
दि इन्फैन्ट्री स्कूल, मऊ (एमपी)

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 26-प्रेज/2015—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए "नौसेना मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. कमोडोर कमलेश कुमार सिंह (41098-बी)
2. कमोडोर सुधिर गोपालकृष्ण (03261-के)
3. कैप्टन सूरज बैरी, विशिष्ट सेवा मेडल (03101-वाई)
4. कैप्टन वी हिरेमथ (41760-एच)
5. कैप्टन मधु जेंटला (51104-डब्ल्यू)
6. कमांडर विंगस्टन मेथूस टी (03367-ए)
7. कमांडर शिवशंकर रवि (03828-जेड)
8. धर्म पाल यादव, एमसी मैक- I, (114381-एच)

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 27-प्रेज/2015—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए "वायु सेना मेडल/एयर फोर्स मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :—

1. ग्रुप कैप्टन विश्रामेट्टा रामामूर्ति विश्वानाथन (21229) उड़ान (पायलट)
2. ग्रुप कैप्टन अनिमेष कुमार सिंह (21255) उड़ान (पायलट)
3. ग्रुप कैप्टन विपुल सिंह (21537) उड़ान (पायलट)
4. ग्रुप कैप्टन मचेरिता करुमभइय प्रवीण (22373) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
5. ग्रुप कैप्टन संदीप बाल्यान (22699) उड़ान (पायलट)
6. ग्रुप कैप्टन प्रदीप अरूण शाह (22925) उड़ान (पायलट)
7. ग्रुप कैप्टन विनय प्रताप सिंह (22951) उड़ान (पायलट)
8. ग्रुप कैप्टन पंकज मित्तल (23166) उड़ान (पायलट)
9. ग्रुप कैप्टन राजेश वर्मा (23190) उड़ान (पायलट)
10. ग्रुप कैप्टन रतीश कुमार (23513) उड़ान (पायलट)
11. ग्रुप कैप्टन संजीव कंवर (23520) उड़ान (पायलट)
12. ग्रुप कैप्टन ताहिर हुसैन अब्दुलगनि शेख (23527) उड़ान (पायलट)
13. ग्रुप कैप्टन आशीष कुमार (23529) उड़ान (पायलट)
14. ग्रुप कैप्टन काज़ा ज्योतिर महेन्द्रा (23762) उड़ान (पायलट)
15. विंग कमांडर मुकेश कोठारी (24047) उड़ान (पायलट)
16. विंग कमांडर गोविन्द भिकाजी पटोले (24211) उड़ान (पायलट)
17. विंग कमांडर रोशा (24241) उड़ान (पायलट)
18. विंग कमांडर सिद्धाबथुला गोपी मोहन (24527) उड़ान (पायलट)
19. 675144 मास्टर वारंट अफसर आनन्द प्रकाश त्रिपाठी फ्लाइट गनर

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 28-प्रेज/2015—राष्ट्रपति "सेनाध्यक्ष" से "रक्षा मंत्री" द्वारा प्राप्त निम्नलिखित अफसरों/कार्मिकों के नाम "मेंसन इन डिसपेचज़" के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं :—

#### ऑपरेशन त्रिशुल शक्ति

1. 4289576 एन सिपाही नबीन डुंग डुंग, 2 बिहार

#### ऑपरेशन मेघ राहत

1. आईसी-58217पी ले. कर्नल भोपिन्दर सिंह सागी, 2 मैदानी आयुध भंडार
2. एसएस-45444डब्ल्यू कैप्टन उमाशंकर नंजप्पा, 102 इंजीनियर रेजिमेन्ट
3. जेसी-27562 6एच सूबेदार लावहाटे रामदास साहेबराव, 169 मैदानी रेजिमेन्ट
4. 407362 2एच हवलदार सरत सिंह, 3 गढ़वाल राईफल्स
5. 2791668एन हवलदार पाटिल अमर अर्जुन, 14 मराठा लाईट ईन्फैन्ट्री

6. 12974868पी राईफलमैन बिलाल अहमद बेग, 162 ईन्फैन्ट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना), जम्मू और कश्मीर लाईट ईन्फैन्ट्री
7. 15712902ए सिग्नलमैन साबले अमर शिवाजी, सिग्नल्स, 34 राष्ट्रीय राईफलस

#### ऑपरेशन मेघदूत

1. आईसी-58363पी ले. कर्नल प्रतिबिम्ब, सेना विमानन कोर, 30(स्वतंत्र) सर्वेक्षण और अवलोकन उड़ान
2. आईसी-64524एच मेजर अजीत श्रीकुमार, 12 सिख लाईट ईन्फैन्ट्री
3. जेसी-500760एल नायब सूबेदार सुखविन्दर सिंह, 19 सिख
4. 2888783एक्स हवलदार शंकर लाल भिचर, 20 राजपूताना राईफलस

#### ऑपरेशन रक्षक

1. आईसी-64048पी मेजर पुनीत दिलावरी, सेना विमानन कोर, 4 सर्वेक्षण और अवलोकन उड़ान / 662 सेना विमानन स्क्वाड्रन (आर एण्ड ओ)
2. आईसी-64498एम मेजर गौतम निशांत, सेना विमानन कोर, 37 (स्वतंत्र) सर्वेक्षण और अवलोकन उड़ान
3. आईसी-66905एच मेजर जगनदीप सिंह मलहोत्रा, सेना सेवा कोर, 2 राष्ट्रीय राईफलस
4. आईसी-67387ए मेजर राहुल गुप्ता, सेना विमानन कोर, 2 सर्वेक्षण और अवलोकन उड़ान/ 662 सेना विमानन स्क्वाड्रन (आर एण्ड ओ)
5. आईसी-68036एक्स मेजर निलेश बिष्ट, सेना विमानन कोर, 9 (स्वतंत्र) सर्वेक्षण और अवलोकन उड़ान
6. आईसी-68704एच मेजर साहिल शर्मा, सेना विमानन कोर, 4 सर्वेक्षण और अवलोकन उड़ान
7. आईसी-69262एफ मेजर अमित पाण्डेय, गार्डस रेजिमेंट, 21 राष्ट्रीय राईफलस
8. आईसी-69271एच मेजर सचिन पाटिल, गार्डस रेजिमेंट, 21 राष्ट्रीय राईफलस
9. आईसी-70989वाई मेजर राज कुमार, 5 ग्रनेडियर्स
10. आईसी-70990एन मेजर लिनसन लॉरेन्स, मराठा लाईट ईन्फैन्ट्री, 56 राष्ट्रीय राईफलस
11. आईसी-71349एफ मेजर विकास कुमार, 27 राजपूत
12. आईसी-72756डब्ल्यू मेजर सुचित पांडे, ईन्जीनियर्स, 3 राष्ट्रीय राईफलस
13. आईसी-73249पी मेजर जितेन्द्र धिमान, सेना मेडल, पंजाब रेजिमेंट, 22 राष्ट्रीय राईफलस
14. एसएस-44230एन मेजर वरूण गुप्ता, ईन्जीनियर्स, 44 राष्ट्रीय राईफलस
15. आईसी-72417डब्ल्यू कैप्टन अभिशेक कुमार, 4 बटालियन पाराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
16. आईसी-77338एल कैप्टन गौथम एस, सेना आयुध कोर, 5 ग्रनेडियर्स
17. आईसी-76442एम लेफ्टिनेंट विनोद शर्मा, पाराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल), 3 राष्ट्रीय राईफलस
18. 2689374एम हवलदार सतार खॉ, 5 ग्रनेडियर्स
19. 2888686 ए हवलदार दीप सिंह, 13 राजपूताना राईफलस
20. 2994828एक्स हवलदार मुरारी सिंह, राजपूत रेजिमेंट, 10 राष्ट्रीय राईफलस
21. 15313303वाई हवलदार एम विनोद कुमार, 4 ईन्जीनियर रेजिमेंट
22. 15313611वाई हवलदार के सोलईराज, ईन्जीनियर्स, 1राष्ट्रीय राईफलस
23. 5248944एक्स लांस हवलदार लिल बहादुर थापा, 5/3 गोरखा राईफलस, 32 राष्ट्रीय राईफलस
24. 14934194एम लांस नायक सत्यवान, मैकनाईज्ड ईन्फैन्ट्री, 50 राष्ट्रीय राईफलस

25. 15797197एच लांस नायक नरेश कुमार, सेना वायु रक्षा कोर, 15 राष्ट्रीय राईफल्स
26. 2700671एच लांस नायक दिनेश कुमार गुर्जर, 5 ग्रनेडियर्स
27. 4092597के राईफलमैन धर्मेन्द्र सिंह, 7 गढवाल राईफल्स
28. 5456820एफ राईफलमैन सुमित गुरुंग, 5/5 गोरखा राईफल्स (आगामी बल)
29. 12954901ए राईफलमैन गुलाम अहमद हरे, 160 ईन्फैन्ट्री बटालियन प्रादेशिक सेना (एच एवं एच), जम्मू और कश्मीर राईफल्स

#### ऑपरेशन आर्चिड

1. जी/5010921एच राईफलमैन खमजी अगी, 1 असम राईफल्स

#### ऑपरेशन हिफाजत

1. आईसी-70427एफ मेजर स्वतंत्रा सिंह कश्यप, 13 असम राईफल्स

#### ऑपरेशन फालकन

1. 63582ए मेजर सचिन श्रीवास्तव, 13 पंजाब रेजिमेन्ट (जिन्द)
2. आईसी-75094के मेजर भानू राना, 2 नागा रेजिमेन्ट

#### ऑपरेशन राईनो

1. आईसी-63441एल मेजर मनोज सिंह, 2 डोगरा रेजिमेन्ट
2. आईसी-76199ए कैप्टन मुकेश कुमार, ई एम ई, 18 महार रेजिमेन्ट
3. आईसी-77854ए कैप्टन सचिन कुमार राय, 19 डोगरा रेजिमेन्ट
4. एससी-00750वाई लेफ्टिनेंट राहुल देव शर्मा, सेना सेवा कोर, 18 महार रेजिमेन्ट
5. जेसी-519509 के सूबेदार विक्रम सिंह, 19 डोगरा रेजिमेन्ट
6. 3189093के हवलदार अर्जुन राम, 7 जाट रेजिमेन्ट
7. 4570817एल हवलदार शिवचरण सिंह, 18 महार रेजिमेन्ट
8. 13756876एक्स हवलदार जगदेव सिंह, 3 जम्मू और कश्मीर राईफल्स
9. 3188720वाई लांस हवलदार राजेश कुमार, 19 डोगरा रेजिमेन्ट
10. 3000683एफ लांस नायक रामफल, 2 राजपूत रेजिमेन्ट
11. 3004810एच सिपाही लक्ष्मण राम, 2 राजपूत रेजिमेन्ट
12. 4005806एच सिपाही संग्राम सिंह, 19 डोगरा रेजिमेन्ट
13. 13769260एच राईफलमैन संदीप कुमार, 3 जम्मू और कश्मीर राईफल्स

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26<sup>th</sup> January 2015

No. 13-Pres/2015 – The President is pleased to approve the award of the “Kirti Chakra” to the under mentioned persons for the acts of conspicuous gallantry:—

1. IC-74786M CAPTAIN JAIDEV, THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) / 3<sup>RD</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

[Effective date of the award: 19<sup>th</sup> June, 2014]

In the evening of 19 June 2014, 3 Rashtriya Rifles received intelligence about presence of three terrorists in Buts village of Pulwama district of Jammu and Kashmir. A joint operation of 3 Rashtriya Rifles and 10 PARA (SF) was launched. Captain Jaidev swung into action and rushed with a small team of seven to seek a contact.

While deploying, Captain Jaidev saw movement of three suspected terrorists 15 meters ahead, who on being challenged opened indiscriminate fire injuring the officer and his buddy grievously. Seeing that his buddy, who had killed one terrorist, was losing blood fast, the officer dragged him to safety. Undeterred by the injuries in the leg and chest and bleeding profusely, Captain Jaidev in an audacious display of raw courage, displaying conspicuous gallantry and bold fighting spirit, closed in with remaining terrorists under heavy fire and shot them at close quarters. The dying terrorist again fired at Captain Jaidev, injuring him in the face. Despite his near fatal injuries, the officer refused to be evacuated till the termination of operations. In the operation, Captain Jaidev personally neutralised two wanted terrorist commanders.

Captain Jaidev displayed dauntless courage and extraordinary valour under heavy fire from close quarters with terrorists in face of certain death.

2. JC-602970Y NAIB SUBEDAR KOSH BAHADUR GURUNG, 1 GORKHA RIFLES / 15<sup>TH</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

[Effective date of the award: 10<sup>th</sup> September, 2014]

Naib Subedar Kosh Bhadur Gurung was leading Ghatak Platoon in an operation located above 12500 feet at general area of Sundarmali of Kupwara district of Jammu and Kashmir.

A group of heavily armed terrorists attempting infiltration was bringing down effective fire on the Ghatak Platoon using assault rifles and Under Barrel Grenade Launcher (UBGL) taking advantage of darkness and big rocks in the area. Sensing grave danger to his buddies and that the terrorists could escape, the JCO displaying nerves of steel and exceptional field craft crawled through a volley of bullets to close in with terrorists. Realising that only one person could move through the gap between big rocks, he alone tactfully manoeuvred to an advantageous position and lobbed grenades and pinned down the terrorists. He then crawled closer upto ten meters and accurately fired through a small gap between rocks to eliminate one terrorist. Now, the second terrorist started firing and pounced on him. With equal ferocity, the JCO pulled out his Khukri and charged at him. A hand to hand fight ensued, when he pushed the terrorist to the ground and killed him.

Naib Subedar Kosh Bhadur Gurung displayed conspicuous gallantry in the face of terrorist fire.

3. JC-531276A SUBEDAR AJAY VARDHAN, 14<sup>TH</sup> BATTALION THE GARHWAL RIFLES (POSTHUMOUS)

[Effective date of the award: 1<sup>st</sup> December, 2014]

Subedar Ajay Vardhan, Platoon Commander of Alpha Company, 14 Garhwal Rifles was deployed at 13000 feet near Line of Control at Kupwara district of Jammu and Kashmir.

On 01 December at 2100 hours while leading an operational team, established contact with infiltrating terrorists at Point 4053. Despite heavy enemy fire, harsh terrain and subzero temperatures, he engaged the terrorists with Light Machine Gun and Rifle fire, and passed crucial information regarding location and strength of terrorists to Battalion Headquarters. Deploying his column tactically, he engaged the terrorists shooting dead one at close quarters. While administering first aid to a wounded soldier, he observed another wounded member of his team being encircled by two terrorists. With utter disregard to personal safety, he charged at the terrorists, killing the second at point blank range and engaged another thereby saving the wounded soldier. The remaining terrorists charged at him. Despite sustaining multiple gun shots to his head and body, he pulled the wounded soldier to safety, continued leading his men and attained martyrdom.

Subedar Ajay Vardhan displayed exemplary initiative, camaraderie, conspicuous courage beyond call of duty and outstanding bravery in fighting with the terrorists.

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 14-Pres/2015 – The President is pleased to approve the award of the “Shaurya Chakra” to the under mentioned persons for the acts of gallantry:—

1. SHRI MUSHTAQ AHMAD, CONSTABLE, HOME DEPTT, GOVT. OF J&K (POSTHUMOUS)

[Effective date of the award: 1<sup>st</sup> July, 2013]

On 1.7.2013, over a specific information about terrorist, a joint operation by Police and 185 Bn CRPF was launched around a house in village Mandura Tral. Two search parties were constituted by Shri Abdul Waheed, SP Awantipora, one headed by Dy. SP Aijaz Rasool, Dy.SP (Ops) Tral and the other by Dy. SP Pervez Ahmad, SDPO, Awantipora. Sensing the situation, the terrorists hidden inside the house fired indiscriminately upon the searching party from three rooms resulting SgCt. Manzoor Ahmad sustained bullet injuries, who took shelter behind a tree in the compound. Two CRPF personnel namely SI Jaswant Singh and CT Manoj Ram, who were in outer cordon, also sustained injuries. The fire was retaliated in self defence and the terrorists were asked to surrender and allow the family members kept locked in one room to come out of the house, which they denied. After evacuation the injured Police officials, as the police party entered the house premises, they came under heavy volume of fire from two different directions. Dy. SP Aijaz Rasool alongwith other police personnel kept the terrorists engaged in firing while the other officials including SgCt. Parvaiz Ahmad gave shoulder to the injured police official.

On seeing the evacuation of the injured police official, one of the terrorist came out of the house instantly and fired upon the police party engaged in evacuation. Constable Mushtaq Ahmad, who was the part of the evacuation party, on one hand gave shield to the police party and on the other hand confronted the terrorist bravely without caring for his own life. The terrorist lobbed a grenade towards the police party, however Constable Mushtaq Ahmad in a fraction of second kicked the grenade with his foot away from the police party which exploded at a few yards distance. Now the terrorist and the police official were face to face at a few yards distance firing at each other and during this process Constable Mushtaq Ahmad was critically injured and later succumbed to his injuries. Under the heavy volume of fire, police party entered the room of trapped members after breaking the door of house and got them free. The operation was concluded under the heavy volume of fire with the elimination of 03 hardcore terrorists.

Shri Mushtaq Ahmad displayed exemplary bravery in fighting with the terrorists and made supreme sacrifice.

2. 13769423L RIFLEMAN MANGA RAM, 3<sup>RD</sup> BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

[Effective date of the award: 9<sup>th</sup> May, 2014]

Rifleman Manga Ram during ‘Operation Langtebuk, launched on 09 May 2014 at Karbi Anglong district of Assam, volunteered for Stay Behind Party. On the sixth day, based on a tip off, Rifleman Manga Ram acting as scout, guided the team, to the suspected area, maintaining absolute surprise while negotiating difficult terrain. As soon as the party approached the suspected hut after establishing the cordon, the troops were pinned down by effective fire from multiple directions. Realising the grave threat, he, displaying exemplary initiative and sound tactical acumen, acted immediately and while the team leader with his buddy was attempting to neutralize fire from one flank, he crawled amidst heavy fire with utter disregard to his personal safety, closed in and neutralized two terrorists one after the other. Thereafter, without letting go the initiative, he signaled his buddy to tackle another terrorist and provided him with intimate fire support. The overall operation resulted in elimination of six terrorists and recovery of huge war like stores.

Rifleman Manga Ram displayed continued acts of gallantry in number of operations and placed himself in extreme danger, for safety of his colleagues is the highest traditions of Indian Army.

3. INSPECTOR/GD, MANJEET SINGH, ITBP, CONSULATE GENERAL OF INDIA, HERAT (AFGHANISTAN)

[Effective date of the award: 23<sup>rd</sup> May, 2014]

Inspector/GD Manjeet Singh, a qualified commando was selected for the sensitive and important assignment of Security In-charge of Consulate General of India (CGI) at Herat in Afghanistan. He was inducted on 22.4.2013 and 25<sup>th</sup> ITBP Commandoes were placed under his command.

On 23.05.2014, at around 0325 hours, a group of armed Fidayeens launched an attack on CGI, Herat with Rocket Propelled Grenades (RPGs/UBGLs) followed by incessant heavy burst fire from automatic weapons. The duty sentries CT/GD Rakesh Kumar, Commando and CT/GD Praveen Kumar, Commando immediately returned fire and alerted Post Commander Inspector Manjeet Singh and other troops.

Inspector/GD Manjeet Singh quickly assessed the threat and organised a counter attack and ordered the troops to firmly counter the Fidayeen attack. Showing critical presence of mind and composure, he escorted the Consulate General and civilian staff to the ‘Strong Room’ and ensured their safety. He swiftly moved from one Commando to the other and guided and motivated them. Meanwhile, the RPG/UBGL firing was persistent.

At about 0400 hrs, a group of Fidayeens climbed the boundary wall with the help of a ladder. One of them entered the Consulate premises, while other Fidayeens were helping him and lobbing grenades to pin the Commandos down. Inspector/GD Manjeet Singh undaunted by grenades, ordered CT/GD Praveen Kumar and CT/GD Rakesh Kumar to engage the Fidayeen by firing on his limbs as the Fidayeen was suspected to be carrying explosive on his body. CT/GD Praveen

Kumar and CT/GD Rakesh Kumar exhibited exemplary valour and engaged the determined Fidayeens with their precise firing and killed one of the intruders and prevented others to enter the premises. Inspector Manjeet also directed HC/GD Vedpal and CT/GD Jadeja Rajendra Singh, deployed on nearby building to engage the attackers from outside. Thus, they thwarted their plan to take the CGI staff hostage.

Somewhat later, Inspector/GD Manjeet Singh observed that UBGL and automatic firing began emanating from nearby dominating building, thus making it impossible for the Commandos to retaliate. He displayed spontaneous and extraordinary courage & valour and the presence of mind and directed HC/GD Vedpal and CT/GD Jadeja Rajendra Singh who were deployed on the nearby residential building, to carefully readjust their positions and effectively engaged the attackers by their automatic weapons. Meanwhile, Afghan Security Forces, comprising of Afghan National Army and Afghan National Police, also arrived and started their Search and Destroy Operation. The gun battle continued for about 08 hours and other 02 Fidayeens were also finally eliminated by continuous firing of HC/GD Vedpal and CT/GD Jadeja Rajendra Singh and the troops of Afghan National Forces.

It was extremely difficult to supervise the entire operation as a large number of lives were at risk. With his bravery, tremendous presence of mind, leadership and selflessness assumes, Inspector/GD Manjeet Singh ensured safety of the Consulate General and staff, killed one Fidayeen who entered the premises, prevented others from entering and also neutralized the other 02 Fidayeens though HC/GD Vedpal and CT/GD Jadeja Rajendra Singh with help of Afghan National Forces and finally negated the nefarious design of the militants and saved the nation from huge embarrassment.

Inspector/GD Manjeet Singh displayed act of bravery with the help of Afghan National Forces and finally negated the nefarious design of the militants and saved the nation from huge embarrassment.

4. IC-71174K MAJOR R VAMSHI KRISHNAN, CORPS OF ENGINEERS / 50<sup>TH</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

[Effective date of the award: 8<sup>th</sup> June, 2014]

On 08 June at 1645 hours on receiving intelligence about presence of two terrorists in dense built up area of village Reshipur of Pulwama district in Jammu and Kashmir, Major R Vamshi Krishnan immediately set out to cordon the village.

When cordon was being established, two suspicious individuals fled inside the narrow bylanes in immediate vicinity. The officer alongwith his buddy swiftly outflanked them from opposite direction. Coming face to face with Major R Vamshi Krishnan and his buddy, the terrorists opened indiscriminate fire on them. The officer and his buddy immediately retaliated and injured one terrorist. Unmindful of personal safety under fire, Major R Vamshi Krishnan, thereafter, closed in using limited cover available and neutralized injured terrorist at extreme close quarters. Meanwhile, the second terrorist continued to bring down heavy fire on them. Realising own fire not being effective and sensing danger to own troops, Major R Vamshi Krishnan and his buddy crawled to five meters of terrorist and neutralised him also.

Major R Vamshi Krishnan displayed raw courage, exemplary leadership, tactical acumen with utter disregard to personal safety in eliminating two hardcore terrorists.

5. CDR GOSAVI KAUSTUBH VIJAYKUMAR, NM, (03657-K)

[Effective date of the award: 3<sup>rd</sup> July, 2014]

During the month of Jul 14 the officer was involved in four separate gallant and courageous acts i.e. on 03 Jul, 14 Jul, 18 Jul and 19 July 14 wherein he was successful in saving lives of 15 personnel in a short span of 16 days.

On 03 Jul 2014, 842 Squadron was tasked to undertake a medical evacuation of a patient who was suffering due to acute abdominal pain onboard MV Star Eagle. The officer whilst navigating through adverse weather / low visibility / rains and strong winds, winched up the patient after ascertaining his medical condition from doctor and successfully evacuated Philippine national to base. The patient was subsequently transferred to hospital for immediate surgery thereby saving his life.

On 14 Jul 14, a distress message was received from MV Priyanka that the ship was grounded off Revdanda close to Mumbai and was listing dangerously thereby endangering the lives of crew onboard. The officer flew through the prevalent inclement rainy weather along with heavy swell and strong seas in the area with continual rains which was reportedly the cause of this marine accident. As captain of aircraft, Commander KVK Gosavi exhibited superior professional competence and leadership traits and employed his outstanding flying skills to affect rescue of all eleven crew members of MV.

On 18 Jul 14 at about 1400 h an alert message for rescue of stranded personnel in Lotus building at Andheri which was on fire was received. On reaching the building he realized that survivors had gathered in a corner one floor below the top floor of the building about 450 feet high and were unable to reach the top due to the towering flames. These menacing flames, strong winds and intense heat made even the approach of the helicopter to area difficult. Notwithstanding the difficult flying environment, he successfully winched up Mr Manik Ogale, fire fighter from Andheri Fire Brigade.

On 19 Jul 14, 842 Squadron was directed to execute Medical Evacuation of two Chinese patients ex MT Ocean Crown. The operation was required to be executed at fringes of Chetak operating ranges of about 20 nm into



the sea. There was no possibility of landing helicopter on the ship and the rescue had to be undertaken by winching up the patients, an arduous task as the patients had multiple fractures. Commander Gosavi employed all his experience and outstanding flying skills to bring the helicopter to a low hover height on deck of MT Ocean Crown. In a challenging and daring operation, he innovatively brought the patient inside the helicopter using the helicopter winch and the assistance from free diver / ground team.

Commander KVK Gosavi displayed gallantry, leadership and professional competence during the rescue operations in which he saved the lives of 15 personnel.

6. IC-69696F MAJOR MUKUL SHARMA, 4<sup>TH</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)

[Effective date of the award: 7<sup>th</sup> August, 2014]

Major Mukul Sharma was operating in Kashmir Valley since January 2010 and has had a tremendous operational experience. His flair in source handling and conduct of operation is unparalleled. He has led a large number of successful operations resulting into elimination of number of terrorists.

On 07 August 2014, Major Mukul Sharma got information of infiltrators in general area of Gagadari Nar at Tangdhar region of Kupwara district of Jammu and Kashmir.

At about 1230 hours Major Mukul Sharma noticed movement of three persons. The three infiltrators immediately opened a hail of fire at the officer. Major Mukul Sharma stood his ground and shot down one infiltrator. He then immediately re-deployed his team to prevent other two infiltrators from escaping. The officer showed tactical acumen and presence of mind to engage the infiltrators throughout the night and prevented them from escaping. On the next day, the officer identified the position of the second infiltrator as he was firing indiscriminately at the search party. Sensing grave danger to his own troops, Major Mukul Sharma acted quickly and with utter disregard to personal safety crawled towards the infiltrator and killed him at a point blank range.

Major Mukul Sharma with his vast experience in Counter Insurgency operations controlled the entire operation meticulously which resulted in elimination of the third infiltrator. The gallant action of Major Mukul Sharma led to elimination of three Pakistani infiltrators, dealing a severe blow to them.

Major Mukul Sharma displayed utter fearlessness in the face of intense firing, conspicuous gallantry, indomitable resolve and courage beyond the call of duty.

7. 4572211A NAIK SWARUP KUMAR GHORAI, 20<sup>TH</sup> BATTALION THE MAHAR REGIMENT

[Effective date of the award: 24<sup>th</sup> August, 2014]

Naik Swarup Kumar Ghorai was part of Brigade Ghataks for Search and Destroy Operation in general area Gurdaji of Kupwara district of Jammu and Kashmir. A group of terrorists from a Dhok suddenly brought down heavy volume of fire on his party and fire fight ensued. Naik Neeraj Kumar Singh, his party commander got grievously injured. Sensing the danger to his party members and maintaining his calm, Naik Swarup reorganised the party and brought effective fire on terrorists and facilitated evacuation of Naik Neeraj Kumar. Suddenly a terrorist came out from Dhok firing indiscriminately and throwing grenades. Showing absolute presence of mind and raw courage, Naik Swarup inched closer to the terrorist and shot him dead at a close range. With utter disregard to his personal safety, Naik Swarup under heavy volume of terrorist's fire and covering fire by Rifleman Gulam Ahmad Harrey, rushed inside the Dhok in the face of death and shot dead second terrorist in close quarter combat.

Naik Swarup Kumar Ghorai displayed gallantry and indomitable courage under fire, and eliminated two hard core foreign terrorists and also facilitated elimination of two more heavily armed terrorists.

8. IC-70817K MAJOR ASHUTOSH KUMAR PANDEY, THE RAJPUT REGIMENT / 44<sup>TH</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

[Effective date of the award: 02<sup>nd</sup> September, 2014]

On 01 September 2014 at 1800 hours, Major Ashutosh Kumar Pandey, Company Commander, received information about the presence of a district commander of Jaish-e-Mohammad with two more terrorists in a Village of Pulwama district of Jammu and Kashmir. The district Commander of Jaish-e-Mohammad was the mastermind behind targeting of police officials and weapon snatching on 06 June 2014. Major Ashutosh acted swiftly by deploying troops in an effective cordon and evacuated civilians from the target house.

On 02 September 2014 at 0730 hours, after a grueling thirteen hours of intermittent firing, Major Ashutosh along with his buddy Sapper Sanjay Kali displaying raw courage while crawling to close proximity of the target house to clear the house extension, received a burst of fire. The officer using battle craft manoeuvred towards the direction of the fire, using cover and showing presence of mind lobbed a grenade inside the window injuring the terrorist. The injured terrorist retaliated with heavy volume of fire. Undeterred by the terrorist fire, the officer crawled, took cover next to the window and with pin

point accuracy fired to neutralise one terrorist. The terrorist was later identified as a Category 'C' terrorist of Jaish-e-Mohammad Tanzeem. On seeing the army next to the house wall, the second terrorist from the adjacent room, lobbed a grenade and opened indiscriminate fire on the officer. Displaying utter professionalism, calm composure and nerves of steel, Major Ashutosh charged towards the window, brought down accurate fire at close quarters to eliminate the second terrorist instantaneously. The terrorist was later identified as district Commander and Category 'A++' terrorist of Jaish-e-Mohammad Tanzeem. The elimination of the district commander of Jaish-e-Mohammad, who was the mastermind in the weapon snatching incident dealt a body blow to the Jaish-e-Mohammad Tanzeem.

Major Ashutosh Kumar Pandey displayed exemplary leadership, courage beyond call of duty, conspicuous gallantry under fire resulting in the elimination of two hardcore Jaish-e-Mohammad terrorists.

9. IC-72464N MAJOR BIBHANSHU DHONDIYAL, 5/5<sup>TH</sup> BATTALION THE GORKHA RIFLES (FRONTIER FORCE)

[Effective date of the award: 19<sup>th</sup> September, 2014]

Major Bibhanshu Dhondiyal was commissioned into 5/5 Gorkha Rifles (Frontier Force) on 12 June 2010 presently performing duties at Eagle I Post, part of Eagle Complex located at approx 14,000 Feet on the Line of Control at Tanghdar district of Jammu and Kashmir.

On 19 September 2014, move of four heavily armed terrorists into Eagle Complex was detected. Major Dhondiyal allowed the terrorists to move into the killing area and then re-sited his parties to cut off their escape routes. Sensing their escape routes had been cut off, the terrorists took cover behind a huge rock and opened indiscriminate fire. Realising that no party was effectively able to engage the terrorists, unmindful of his own safety, Major Dhondiyal left cover and crawled nearer to the hiding terrorists. Terrorists saw him inching closer and directed their fire at him. Unmindful of the terrorists' fire, the officer got up and lobbed a grenade, killing one terrorist. The second terrorist got up and charged towards him. Unflinching, Major Dhondiyal stood his ground and killed him at close range.

Major Bibhanshu Dhondiyal displayed gallantry beyond the call of duty and utter disregard to own safety while fighting with the terrorists.

10. IC-70688P MAJOR ABHIJAI, CORPS OF ENGINEER, 39 (INDEPENDENT) RECONNAISSANCE AND OBSERVATION FLIGHT (POSTHUMOUS)

[Effective date of the award: 1<sup>st</sup> October, 2014]

Major Abhijai was nominated as Captain of the Aircraft for Operational readiness consolidation sortie for OP IRON FIST for induction into Operational Area and Battle Inoculation of aviators on 01 October 2014. The aircraft suffered a catastrophic failure of tail rotor while flying over the heavily populated area of village Bhartol and unit lines of 54 Engineer Regiment where a Sainik Sammelan was in progress at Bareilly district of Uttar Pradesh. The aircraft had logged approximately sixty minutes of flying time till then. The aviator, having promptly identified the emergency, exhibited indomitable valour, extreme courage and utter disregard for personal safety by manoeuvring the crippled aircraft away from the inhabited area and 54 Engineer Regiment. In the limited time available, the aviator transmitted a distress call to the air traffic control tower and also cut off the fuel supply to the engine in order to minimise the collateral damage. The aviator successfully diverted the aircraft despite the tremendous damage suffered in order to save the lives of his brethren in uniform and populace of village Bhartol. Major Abhijai put the lives of these men ahead of his own and sacrificed himself in the process.

The aviator diverted the aircraft away from the habitation displaying split second reactions despite knowing fully well that it would lead to loss of his own life. For upholding the credo of Service Self and sacrificing his life to save the soldiers of 54 Engineer Regiment and the civilian populace.

11. 13776150W PARATROOPER BALVINDER SINGH/FIRST BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) (POSTHUMOUS)

[Effective date of the award: 27<sup>th</sup> November, 2014]

Paratrooper Balvinder Singh was the leading scout of Squad No 3 of Assault Troop positioned at Samba tasked to undertake a Search and Destroy Operation on 27 November 2014 against infiltrated terrorists who were holding out in a fierce gun battle against security forces on Kathar West DCB in Arnia Sector of Jammu District of Jammu and Kashmir.

Under covering fire provided by PIKA No 1 Havildar Pawan Singh, and displaying heroic initiative and exemplary field craft with utter disregard to personal safety, Paratrooper Balvinder Singh stealthily crawled and closed in towards the location of the well concealed terrorist. Sensing danger, the terrorist lobbed two grenades in quick succession and fired bursts from close range towards both Paratrooper Balvinder Singh and Havildar Pawan Singh thereby injuring them. Undeterred despite being grievously wounded and bleeding profusely, the young paratrooper demonstrating unflinching bravery and unvanquishable determination, crawled up stealthily under fire and fired accurate head shots killing the terrorist instantly thus ensuring the safety of his remaining Squad members before attaining martyrdom in the highest traditions of Indian Army.

Paratrooper Balvinder Singh displayed exceptional valour, audacity in face of fire and making the supreme sacrifice beyond the call of duty in the face of grave personal danger.

12. IC-58918L LIEUTENANT COLONEL SANKALP KUMAR, 24<sup>TH</sup> BATTALION THE PUNJAB REGIMENT (POSTHUMOUS)

[Effective date of the award: 5<sup>th</sup> December, 2014]

Lieutenant Colonel Sankalp Kumar was Second-in-Command of 24 PUNJAB Regiment. Despite being a Battle Casualty, he volunteered to accompany Unit to field and played a pivotal role in operations and intelligence gathering. On 05 December 2014, he was leading a column as part of the operation launched to neutralize the Fidayeen attack on 31 Field Regiment at Baramulla district of Jammu and Kashmir.

At 0545 hours, he established Stops around Western side of Mahura Gun Area wherein six terrorists sneaked inside and caused casualty to five Other Ranks. At 0550 hours Lt Col Sankalp Kumar along with Havildar Subhash Chand and Naik Gurmail Singh came under effective fire. The officer retaliated immediately pinning down the terrorists. Thereafter, terrorists lobbed grenades and fired a volley of burst grievously injuring the officer. With utter disregard to his personal safety, the officer continued to engage the terrorist who intended to cause more casualties to own troops. In a rare display of dauntless courage he pinned the terrorist with effective fire thereby resulting in his subsequent elimination before making supreme sacrifice of his life.

Lieutenant Colonel Sankalp Kumar displayed act of valour and exemplary fortitude in face of terrorist fire.

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 15-Pres/2015 – The President is pleased to approve the award of the “Param Vishisht Seva Medal” to the under mentioned personnel for distinguished service of the most exceptional order:—

1. IC-27969X LIEUTENANT GENERAL RAJESH PANT  
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL / CORPS OF SIGNALS, MILITARY COLLEGE OF TELECOMMUNICATION ENGINEERING, MHOW (MP) / (RETIRED)
2. IC-30682L LIEUTENANT GENERAL MANVENDER SINGH  
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL / INFANTRY, INDIAN MILITARY ACADEMY, DEHRADUN
3. IC-30702N LIEUTENANT GENERAL PHILIP CAMPOSE  
BAR TO ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL  
MECHANISED INFANTRY
4. IC-31014F LIEUTENANT GENERAL VIJAY KUMAR SAXENA  
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL  
ARMY AIR DEFENCE CORPS
5. IC-31134A LIEUTENANT GENERAL GAUTAM MOORTHY  
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL  
ARMY ORDNANCE CORPS (RETIRED)
6. IC-31323K LIEUTENANT GENERAL SANJEEV MADHOK  
ATI VISHIHST SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL  
MECHANISED INFANTRY
7. IC-31324M LIEUTENANT GENERAL KOTHENETH SURENDRANATH, BAR TO ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL, ARMOURED CORPS / HQ SOUTHERN COMMAND
8. IC-31336F LIEUTENANT GENERAL SUNIL SADANAND JOG  
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL / INFANTRY, OFFICERS TRAINING ACADEMY, CHENNAI (RETIRED)
9. IC-31348W LIEUTENANT GENERAL RAJAN BAKSHI  
UTTAM YUDH SEVA MEDAL / ARMOURED CORPS  
HEADQUARTERS CENTRAL COMMAND
10. IC-31638N LIEUTENANT GENERAL OM PRAKASH  
UTTAM YUDH SEVA MEDAL, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL / INFANTRY
11. IC-31642W LIEUTENANT GENERAL NRUSINGHA PRASAD PADHI,  
VISHISHT SEVA MEDAL / CORPS OF ENGINEERS

12. IC-31653H LIEUTENANT GENERAL ANIL KUMAR BHALLA  
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL / ARMoured  
CORPS, HEADQUARTER INTEGRATED DEFENCE STAFF
13. IC-31736N LIEUTENANT GENERAL RAJIV BHALLA  
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA  
MEDAL, INFANTRY
14. IC-31739F LIEUTENANT GENERAL CHANGALI ANANDA  
KRISHNAN, UTTAM YUDH SEVA MEDAL, ATI VISHISHT  
SEVA MEDAL / INFANTRY
15. IC-34036L LIEUTENANT GENERAL PERUVEMBA RAMACHANDRAN KUMAR, ATI VISHISHT  
SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL , REGIMENT OF ARTILLERY
16. IC-36200F LIEUTENANT GENERAL BALBIR SINGH PAMA  
SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL, INFANTRY(RETIRED)
17. IC-36527A LIEUTENANT GENERAL RAKESH CHANDRA CHADHA, ATI VISHISHT SEVA MEDAL,  
VISHISHT SEVA MEDAL / ARMoured CORPS
18. MR-04006Y LIEUTENANT GENERAL VED PRAKASH CHATURVEDI, VISHISHT SEVA MEDAL /  
ARMY MEDICAL CORPS
19. DR-10298H LIEUTENANT GENERAL VIMAL ARORA  
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, BAR TO VISHISHT SEVA MEDAL  
ARMY DENTAL CORPS / DIRECTORATE GENERAL OF DENTAL SERVICE
20. VICE ADMIRAL SUNIL LANBA, AVSM, (01823-T)
21. VICE ADMIRAL RK PATTANAIAK, AVSM, YSM (01860-A)
22. VICE ADMIRAL KR NAIR, AVSM, VSM, (50575-T)
23. AIR MARSHAL RAKESH KUMAR JOLLY, VM, VSM (14083) FLYING(PILOT) (RETIRED)
24. AIR MARSHAL PARAMJIT SINGH GILL, AVSM, VM (14097) FLYING (PILOT) (RETIRED)
25. AIR MARSHAL SUBRAMANYA SUKUMAR, AVSM, VM (14672) FLYING (PILOT)
26. AIR MARSHAL SUNEEL SHRIPAD SOMAN, AVSM, VM, ADC (14681) FLYING (PILOT)
27. AIR MARSHAL ARUN PURUSHOTTAM GARUD, VM, ADC (14692) FLYING (PILOT)
28. AIR MARSHAL PACKIRISWAMY KANAKARAJ, AVSM, VSM  
(15066) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) (RETIRED)

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 16–Pres/2015 – The President is pleased to approve the award of the “Uttam Yuddh Seva Medal” to the under mentioned personnel for the distinguished service of an exceptional order during hostilities:—

1. IC-34385P LIEUTENANT GENERAL ANIL KUMAR AHUJA  
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL, BAR TO VISHISHT SEVA MEDAL,  
REGIMENT OF ARTILLERY / HEADQUARTER 4 CORPS
2. IC-34392L LIEUTENANT GENERAL GURMIT SINGH,  
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL, INFANTRY,  
HEADQUARTER 15 CORPS
3. IC-34605N LIEUTENANT GENERAL RAKESH SHARMA  
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL / INFANTRY,  
HEADQUARTER 14 CORPS

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 17—Pres/2015 – The President is pleased to approve the award of the “Bar to Ati Vishisht Seva Medal” to the under mentioned personnel for distinguished service of an exceptional order:—

1. IC-30408N LIEUTENANT GENERAL VIJAY KUMAR NARULA  
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL  
REGIMENT OF ARTILLERY (RETIRED)
2. IC-30507W LIEUTENANT GENERAL SANJEEV CHOPRA  
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL / INFANTRY (RETIRED)
3. IC-34890X LIEUTENANT GENERAL SRINIVASAN LAKSHMI NARASIMHAN,  
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL, INFANTRY

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 18—Pres/2015 – The President is pleased to approve the award of the “Ati Vishisht Seva Medal” to the under mentioned personnel for distinguished service of an exceptional order:—

1. IC-30701L LIEUTENANT GENERAL ABHAY TRIVIKRAM PARNAIK, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL / CORPS OF ENGINEER, DIRECTOR GENERAL BOARDER ROAD
2. IC-30727A LIEUTENANT GENERAL TEJWANT SINGH GILL,  
SENA MADAL, VISHISHT SEVA MEDAL, INFANTRY (RETIRED)
3. IC-30736F LIEUTENANT GENERAL JATINDER SIKAND  
VISHISHT SEVA MEDAL / CORPS OF ENGINEERS
4. IC-31118H LIEUTENANT GENERAL BALVINDER SINGH SACHAR, SENA MEDAL,  
BAR TO VISHISHT SEVA MEDAL / INFANTRY
5. IC-31663M LIEUTENANT GENERAL RAKESH NANDAN,  
SENA MEDAL, ARMY AIR DEFENCE CORPS
6. IC-34014M LIEUTENANT GENERAL AMIT SHARMA  
VISHISHT SEVA MEDAL / ARMOURED CORPS  
STRATEGIC FORCES COMMAND
7. IC-34098L LIEUTENANT GENERAL HARMINDERJIT SINGH SACHDEV,  
SENA MEDAL / INFANTRY
8. IC-34379F LIEUTENANT GENERAL RAJIV BHATIA  
ARMY AIR DEFENCE CORPS
9. IC-34410H LIEUTENANT GENERAL SATYA PAL SINGH KATEWA  
ARMY SERVICE CORPS
10. IC-34760F LIEUTENANT GENERAL PRAVEEN BAKSHI  
VISHISHT SEVA MEDAL / ARMOURED CORPS
11. IC-34888A LIEUTENANT GENERAL RAVINDRA PRATAP SAHI  
INFANTRY
12. IC-35040A LIEUTENANT GENERAL RAKESH MOHAN MITTAL,  
SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL / CORPS OF ENGINEERS
13. IC-35226K LIEUTENANT GENERAL KOCHERLAKOTA GOPALA KRISHNA, SENA MEDAL,  
VISHISHT SEVA MEDAL, INFANTRY
14. MR-03911F LIEUTENANT GENERAL MANOJ KUMAR UNNI,  
VISHISHT SEVA MEDAL, ARMY MEDICAL CORPS
15. MR-04317M LIEUTENANT GENERAL PREM PRAKASH VERMA,  
SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL / ARMY MEDICAL CORPS
16. IC-35153H MAJOR GENERAL DEVENDRA KUMAR PUROHIT,  
SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL / INFANTRY
17. IC-35481W MAJOR GENERAL RAJIV NARAYANAN,  
VISHISHT SEVA MEDAL, ARMOURED CORPS

18. IC-35941M MAJOR GENERAL PRAKASH NARAYAN TRIPATHI, VISHISHT SEVA MEDAL, ARMY AIR DEFENCE CORPS
19. IC-37371A MAJOR GENERAL ASHOK KUMAR ARMY SERVICE CORPS / HQ EASTERN COMMAND
20. IC-37555Y MAJOR GENERAL VINOD G KHANDARE, SENA MEDAL/INFANTRY
21. IC-38266W MAJOR GENERAL SURINDER SINGH, VISHISHT SEVA MEDAL/INFANTRY
22. IC-38708K MAJOR GENERAL ASHOK AMBRE, SENA MEDAL, INFANTRY
23. IC-38731X MAJOR GENERAL SURENDER SINGH LAMBA SENA MEDAL / ARMY ORDNANCE CORPS
24. IC-38753W MAJOR GENERAL JASWINDER SINGH SANDHU, VISHISHT SEVA MEDAL, INFANTRY
25. IC-39070P MAJOR GENERAL RANBIR SINGH, YUDH SEVA MEDAL, SENA MEDAL, INFANTRY
26. IC-39098P MAJOR GENERAL GURPRATAP SINGH DHILLON, YUDH SEVA MEDAL, SENA MEDAL, INFANTRY
27. IC-39295X MAJOR GENERAL PARMINDER JIT SINGH PANNU, VISHISHT SEVA MEDAL, INFANTRY
28. IC-39492A MAJOR GENERAL ANIL CHAUHAN, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL, INFANTRY
29. IC-39676Y MAJOR GENERAL DHARAMVIR SINGH RANA SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL / INFANTRY
30. IC-39826K MAJOR GENERAL TARLOCHAN SINGH SIDANA, VISHISHT SEVA MEDAL, CORPS OF ENGINEERS
31. IC-40022K MAJOR GENERAL ANIL KUMAR BHATT SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL, INFANTRY
32. VICE ADMIRAL JK KORDE, VSM, (01912-W)
33. VICE ADMIRAL ANIL KUMAR CHAWLA, NM, VSM (02312-B).
34. VICE ADMIRAL DINESH MUKUND DESHPANDE, VSM (40844-A)
35. REAR ADMIRAL SUDARSHAN YASHWANT SHRIKHANDE (02152-R)
36. REAR ADMIRAL AJAY KUMAR SAXENA, VSM, (50763-W)
37. REAR ADMIRAL G ASHOK KUMAR , VSM, (02470-N)
38. REAR ADMIRAL ATUL KUMAR JAIN, VSM (02459-N).
39. AIR MARSHAL BIRENDER SINGH DHANOA, YSM, VM (15405) FLYING (PILOT)
40. AIR MARSHAL SUKHCHAIN SINGH, VSM (15808) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
41. AIR VICE MARSHAL RAJAN PARADAYIL GEORGE (15751) LOGISTICS
42. AIR VICE MARSHAL CHAMBALA KARAI RANJAN, VSM (16015) MEDICAL
43. AIR VICE MARSHAL RAGHUNATH NAMBIAR, VM & BAR (16378) FLYING (PILOT)
44. AIR VICE MARSHAL VIVEK RAM CHAUDHARI, VM (16978) FLYING (PILOT)
45. AIR COMMODORE SURYAKANT CHINTAMAN CHAFEKAR, SC (17013) FLYING (PILOT)

46. AIR COMMODORE PRAVIN RAMCHANDRA NAVALKAR (17173)  
FLYING (PILOT)
47. AIR COMMODORE KRISHNA IYENGAR RAVI, VSM (17674)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
48. AIR COMMODORE PRASHANT EKNATH PATANGE, YSM, VM  
(17706) FLYING (PILOT)
49. AIR COMMODORE SUNIL KUMAR, YSM (17713) FLYING (PILOT)
50. AIR COMMODORE AJAY RATHORE, VM (18258) FLYING (PILOT)
51. AIR COMMODORE BALAKRISHNAN BALACHANDRAN, VM (18561) FLYING (PILOT)
52. AIR COMMODORE SURAT SINGH, VM, VSM (18563) FLYING (PILOT)
53. AIR COMMODORE HARDEEP BAINS, VSM (19180) FLYING (PILOT)

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 19–Pres/2015 – The President is pleased to approve the award of the “Yuddh Seva Medal” to the undermentioned personnel for the distinguished service of a high order during hostilities:—

1. IC-38300L MAJOR GENERAL VIVEK PRATAP SINGH  
INFANTRY / HEADQUARTERS 25 INFANTRY DIVISION
2. IC-39465W MAJOR GENERAL AMARJEET SINGH BEDI, VISHISHT SEVA MEDAL,  
THE GARHWAL RIFLES / HEADQUARTERS 3 INFANTRY DIVISION
3. IC-39522M MAJOR GENERAL JAIVEER SINGH NEGI, BAR TO VISHISHT SEVA MEDAL,  
INFANTRY / HEADQUARTERS 8 MOUNTAIN DIVISION
4. IC-39929H MAJOR GENERAL SARANJEET SINGH  
INFANTRY / HEADQUARTERS 25 INFANTRY DIVISION
5. IC-42954M BRIGADIER ACHUTHAN PRAMOD KUMAR  
INFANTRY / 12<sup>TH</sup> SECTOR RASHTRIYA RIFLE
6. IC-43914X BRIGADIER RAJIV KUMAR MAHNA, SENA MEDAL  
THE KUMAON REGIMENT / HEADQUARTERS 40 MOUNTAIN BRIGADE
7. IC-44065N BRIGADIER MANJINDER SINGH / THE MADRAS REGIMENT,  
HEADQUARTERS 121 (INDEPENDENT) INFANTRY BRIGADE GROUP
8. IC-44261N BRIGADIER BRIJ GOPAL, SENA MEDAL  
THE DOGRA REGIMENT / HEADQUARTERS 3 SECTOR RASHTRIYA RIFLE
9. IC-44527P BRIGADIER ASHOK SINGH, SENA MEDAL  
THE MADRAS REGIMENT / HEADQUARTERS 190 MOUNTAIN BRIGADE
10. IC-44545X BRIGADIER ANINDYA SENGUPTA  
THE PUNJAB REGIMENT / 120<sup>TH</sup> INFANTRY BRIGADE
11. IC-47020Y BRIGADIER DINESH SINGH RANA, SENA MEDAL  
THE GARHWAL RIFLES / HEADQUARTERS 11 MOUNTAIN BRIGADE
12. IC-47223H BRIGADIER SANJEEV CHAUHAN  
THE GORKHA RIFLES / 73 MOUNTAIN BRIGADE
13. IC-55822X COLONEL MUNINDRA NATH RAI  
THE GORKHA RIFLES / 42 RASHTRIYA RIFLES

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 20–Pres/2015 – The President is pleased to approve the award of the “Bar to Vishisht Seva Medal” to the under mentioned personnel for distinguished service of a high order:—

1. IC-35586A MAJOR GENERAL BHUPINDER SINGH SAROYA, VISHISHT SEVA MEDAL/MECHANISED INFANTRY
2. IC-35929L MAJOR GENERAL VINOD VASHISHT, VISHISHT SEVA MEDAL REGIMENT OF ARTILLERY
3. MR-04173P MAJOR GENERAL COIMBATORE SIVASUBRAMANIAN NARAYANAN, BAR TO VISHISHT SEVA MEDAL, ARMY MEDICAL CORPS
4. MR-04889N BRIGADIER PRASHANT BHARADWAJ, VISHISHT SEVA MEDAL, ARMY MEDICAL CORPS

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 21–Pres/2015 – The President is pleased to approve the award of the “Vishisht Seva Medal” to the under mentioned personnel for distinguished service of a high order :—

1. IC-34148L LIEUTENANT GENERAL RAJENDRA PRASAD RAI  
ARMY SERVICE CORPS
2. IC-35796A LIUETENANT GENERAL KANWAL JEET SINGH, CORPS OF ELECTRONICS & MECHANICAL ENGINEER
3. IC-35987P LIUETENANT GENERAL DEWAN RABINDRANATH SONI,  
INFANTRY
4. IC-37795W LIUETENANT GENERAL VISHWAMBHAR SINGH  
CORPS OF ENGINEERS
5. V-00347M LIEUTENANT GENERAL JAGVINDER SINGH,  
REMOUNT VETERINARY CORPS
6. IC-38528F MAJOR GENERAL KAPIL KUMAR AGGARWAL,  
CORPS OF ELECTRONICS & MECHANICAL ENGINEER
7. IC-38641W MAJOR GENERAL JAI SHANKER MENON  
INFANTRY
8. IC-38750H MAJOR GENERAL MANOJ MUKUND NARAVANE, SENA MEDAL,  
INFANTRY / HEADQUARTER INSPECTOR GENERAL ASSAM RIFLES (NORTH)
9. IC-38879W MAJOR GENERAL ASHWANI KUMAR,  
ARMY AIR DEFENCE
10. IC-34423A MAJOR GENERAL ALOK DEB, SENA MEDAL  
REGIMENT OF ARTILLERY / HEADQUARTERS EASTERN COMMAND
11. IC-34758X MAJOR GENERAL ARVIND KUMAR RATHEE, SENA MEDAL,  
REGIMENT OF ARTILLARY
12. IC-35167H MAJOR GENERAL YASHWANT SINGH  
CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEER / EME SCHOOL, VADODARA
13. IC-35566M MAJOR GENERAL MAVELIMANNIL JOHN MATHEW  
SENA MEDAL / REGIMENT OF ARTILLERY  
HEADQUARTERS EASTERN COMMAND
14. IC-37855A MAJOR GENERAL TIRBANI PARSHAD  
JUDGE ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT
15. IC-38305K MAJOR GENERAL KARUN KUMAR SINHA,  
SENA MEDAL, INFANTRY
16. IC-38590N MAJOR GENERAL SANJIV VARMA,  
ARMOURED CORPS
17. IC-38746A MAJOR GENERAL ARUP SEN  
CORPS OF SIGNALS / HEADQUARTERS EASTERN COMMAND



18. IC-38747H MAJOR GENERAL RAM KISHAN SAIWAL  
ARMY ORDNANCE CORPS
19. IC-39521K MAJOR GENERAL YOGESH TRILOKCHAND JAIN,  
REGIMENT OF ARTILLARY
20. IC-39832X MAJOR GENERAL GOPAL KRISHAN CHOPRA  
ARMY EDUCATION CORPS
21. IC-39871W MAJOR GENERAL SANTOSH KUMAR UPADHYA, SENA MEDAL,  
INFANTRY / HEADQUARTERS 59 INFANTRY DIVISION
22. IC-39966W MAJOR GENERAL VIRINDER SINGH RANDHAWA,  
CORPS OF ELECTRONICS & MECHANICAL ENGINEER
23. IC-40007M MAJOR GENERAL YENDURU VENKATA KRISHNA MOHAN, SENA MEDAL,  
INFANTRY / HEADQUARTERS 17 MOUNTAIN DIVISION
24. IC-40293Y MAJOR GENERAL ALOK SINGH KLER  
ARMOURED CORPS
25. IC-40302P MAJOR GENERAL RAVENDRA PAL SINGH,  
MECHANISED INFANTRY
26. V-00359F MAJOR GENERAL AMOLAK JIT SINGH,  
REMOUNT VETERINARY CORPS
27. IC-39751X BRIGADIER HARPAL SINGH, ARMOURED CORPS
28. IC-40097Y BRIGADIER RAJAN KOCHHAR  
ARMY ORDNANCE CORPS / CENTRAL ORDNANCE DEPOT, DEHU ROAD
29. IC-40534N BRIGADIER MILIND N BHURKE  
CORPS OF SIGNALS
30. IC-40568F BRIGADIER K UMAMAHESWAR,  
REGIMENT OF ARTILLARY
31. IC-40623M BRIGADIER PRAMOD KUMAR SINGH,  
REGIMENT OF ARTILLARY
32. IC-40679Y BRIGADIER AMIT KUMAR SANYAL,  
ARMOURED CORPS
33. IC-40716F BRIGADIER MANOJ PANDE  
CORPS OF ENGINEERS
34. IC-41105Y BRIGADIER INDEEVER SOOD  
CORPS OF ENGINEERS
35. IC-41223M BRIGADIER RAVINDRA SINGH RAWAT,  
4 GORKHA RIFLE
36. IC-41507W BRIGADIER ARVIND KAPOOR,  
BRIGADE OF THE GUARDS
37. IC-41605W BRIGADIER RAJBANS PAL SINGH KAHLON,  
REGIMENT OF ARTILLARY
38. IC-41896F BRIGADIER RAJENDRA V DESAI,  
MAHAR REGIMENT
39. IC-41926N BRIGADIER AJAY H CHAUHAN,  
MECHANISED INFANTRY
40. IC-42171N BRIGADIER SAMEER KALLA  
2 NAGA REGIMENT
41. IC-42315L BRIGADIER PARAMJIT SINGH,  
ARMY ORDNANCE CORPS
42. IC-42561W BRIGADIER GOPI IYER  
REGIMENT OF ARTILLARY

43. IC-42831A BRIGADIER RUPINDER SINGH,  
REGIMENT OF ARTILLARY
44. IC-43245K BRIGADIER NS RAJA SUBRAMANI, SENA MEDAL  
GARHWAL RIFLES
45. IC-43364A BRIGADIER SUKHWINDER SINGH KHARA,  
INTELLIGENCE CORPS
46. IC-43658N BRIGADIER HARI SINGH  
CORPS OF ENGINEERS
47. IC-43702M BRIGADIER PATANJALI RAHUL  
ARMY AIR DEFENCE CORPS
48. IC-44083W BRIGADIER SANJAY PURI  
THE GARHWAL RIFLES
49. IC-44090M BRIGADIER VINAY DHIMAN  
REGIMENT OF ARTILLARY
50. IC-44095L BRIGADIER ANIL KUMAR KASHID  
REGIMENT OF ARTILLARY
51. IC-44175H BRIGADIER SUNEEL MORESWAR LIMAYE  
THE SIKH REGIMENT
52. IC-44504N BRIGADIER GURBIRPAL SINGH  
THE PARACHUTE REGIMENT
53. IC-47013H BRIGADIER DEEPAK MEHRA, KIRTI CHAKRA  
THE GORKHA RIFLES
54. IC-48067W BRIGADIER RASHIM BALI  
SIKH LIGHT INFANTRY
55. IC-48643P BRIGADIER SUDHIR KUMAR SHARMA  
REGIMENT OF ARTILLARY
56. MR-04141M BRIGADIER MONOMOY GANGULY,  
ARMY MEDICAL CORPS
57. MR-04790X BRIGADIER SANJAY BAGCHI,  
ARMY MEDICAL CORPS/ ARMED FORCES MEDICAL STORES DEPOT
58. IC-46768N COLONEL SAMARENDRA PRATAP  
2<sup>ND</sup> BATTALION THE BIHAR REGIMENT
59. IC-48444F COLONEL ANAND KUMAR KV  
CORPS OF ELECTRONICS & MECHANICAL ENGINEER
60. IC-48625M COLONEL GAUTAM CHAUHAN,  
1<sup>ST</sup> BATTALION THE GORKHA RIFLES
61. IC-49636L COLONEL CHARANJEEV MANJU  
DOGRA REGIMENT
62. IC-49884F COLONEL SUMESH SETH  
THE JAMMU & KASHMIR LIGHT INFANTRY
63. IC-50060L COLONEL RAJEEV CHAWLA  
GRENADIERS
64. IC-50279A COLONEL DHARM RAJ RAI  
THE KUMAON REGIMENT
65. IC-50298L COLONEL PANKAJ FOTEDAR  
CORPS OF SIGNALS
66. IC-50583K COLONEL CHARAN SINGH BASWANA,  
CORPS OF ENGINEERS

67. IC-52650H COLONEL SUMON KUMAR GHOSH,  
CORPS OF ENGINEERS / 101 ENGINEER REGIMENT
68. IC-53498M COLONEL KARVE ANAND ANIL, 102 ENGR REGT
69. IC-57187W COLONEL SANJEEV CHOPRA  
25<sup>TH</sup> BATTALION THE PUNJAB REGIMENT
70. IC-57502F COLONEL DKS SHARAWAT, VIR CHAKRA  
2 NAGA REGIMENT
71. MR-05688F COLONEL NARENDRA KOTWAL  
ARMY MEDICAL CORPS
72. MR-05813A COLONEL UPENDRA NATH JHINGAN  
ARMY MEDICAL CORPS
73. MR-06191W COLONEL AMITA CHATURVEDI  
ARMY MEDICAL CORPS
74. DR-10446H COLONEL BARADA PRASANNA PANDA  
ARMY DENTAL CORPS
75. IC-57758K LIEUTENANT COLONEL RAHUL MANN,  
ARMY AVIATION CORPS, 34 R&O FLT
76. IC-61974P LIEUTENANT COLONEL CHINMAY PARIKH,  
CORPS OF ELECTRONICS & MECHANICAL ENGINEER
77. REAR ADMIRAL BALDEV RAJ TANEJA, NM, (50711-A)
78. REAR ADMIRAL BISWAJIT DASGUPTA (02782-Y)
79. COMMODORE SRINIVAS CHIKKERUR (50860-R)
80. COMMODORE AJAY KUMAR PANDEY (02484-W)
81. COMMODORE PUNEET KUMAR BAHL (02741-B)
82. COMMODORE KAPIL MOHAN DHIR (02785-B)
83. SURGEON COMMODORE NAVEEN CHAWLA (75402-T)
84. COMMODORE BR PRAKASH (03010-R)
85. COMMODORE JATINDER SINGH (03218-N)
86. COMMODORE B SIVAKUMAR (50992- R)
87. COMMODORE ATUL ANAND (03247-B)
88. COMMODORE DEEPAK BANSAL (41343-K)
89. CAPTAIN CYRIL THOMAS (41552-K)
90. SURGEON CAPTAIN ROCHAN PANT (75453-H)
91. CAPTAIN DALIP SINGH (04174-K)
92. P SAJAYAN NAIR, MCPO II CD-I (167349-R)
93. AIR VICE MARSHAL JAI VIR SINGH (15758) LOGISTICS (RETIRED)
94. AIR COMMODORE OM PRAKASH TIWARI (16678)  
FLYING (NAVIGATOR)
95. AIR COMMODORE KISHORI LAL YADAV (16931)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
96. AIR COMMODORE SANJAY BHATNAGAR, VM (17363)  
FLYING (PILOT)
97. AIR COMMODORE BALVINDER SINGH SABHERWAL (17374) ADMINISTRATION / AIR  
TRAFFIC CONTROLLER
98. AIR COMMODORE SANJAY AGARWAL (17420)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

99. AIR COMMODORE PIJUSH MUKHERJEE (17671)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
100. AIR COMMODORE SREENIVASA RAO NALVADE VENKATARAO (17920)  
ACCOUNTS
101. AIR COMMODORE PAWAN KUMAR MOHEY (18099)  
FLYING (PILOT)
102. AIR COMMODORE ANURAG JOSHI (18280) FLYING (PILOT)
103. GROUP CAPTAIN VINOD MALIK (18133) ADMINISTRATION/AIR TRAFFIC CONTROLLER
104. GROUP CAPTAIN BHASKAR NANDI (18188) MEDICAL
105. GROUP CAPTAIN RAJAPANTULA SUBBARAO (18438)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
106. GROUP CAPTAIN AJAY SINGH PATHANIA (18594) FLYING (PILOT)
107. GROUP CAPTAIN RAJESH NARAYAN MEDIKERI (18730)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
108. GROUP CAPTAIN SANJAY KUMAR SRIVASTAVA (19128)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
109. GROUP CAPTAIN PADIPPURACKAL THEKKETHIL KRISHNAPILLAI SREEKUMAR (19722)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
110. GROUP CAPTAIN KONDENGALARA ABOO AHAMED SANJEEB (20227) AERONAUTICAL  
ENGINEERING (MECHANICAL)
111. GROUP CAPTAIN SAMIR J PENDSE VM (20495), FLYING (PILOT)
112. GROUP CAPTAIN SANJIVE DHAKA (20600) ADMINISTRATION/FIGHTER CONTROLLER
113. GROUP CAPTAIN PVN RAVI MADHAV SARMA (20616) LOGISTICS
114. GROUP CAPTAIN NAND KUMAR NAIR (20680)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
115. GROUP CAPTAIN HARSH BAHL (20863)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
116. GROUP CAPTAIN DEVENDRA P HIRANI (21019) FLYING (PILOT)
117. GROUP CAPTAIN SATHYAMOURTHY RAMANATHAN (21078)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
118. GROUP CAPTAIN GURSHARAN SINGH MATHARU (21276) FLYING (PILOT)
119. GROUP CAPTAIN ABHIJIT PRABHAKAR SARAPH (21427)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
120. GROUP CAPTAIN ASHISH SINGH VM (21517), FLYING (PILOT)
121. GROUP CAPTAIN VASUDEVAN RAJALEKSHMI SANIL (21523) FLYING (PILOT)
122. GROUP CAPTAIN INDERJEET SINGH HANSPAL (21961) ADMINISTRATION/AIR TRAFFIC  
CONTROLLER
123. GROUP CAPTAIN PARTHASARATHI GHANA (23452) MEDICAL
124. SQUADRON LEADER GOPALAKRISHNAN JAYACHANDRAN (28293) ADMINISTRATION

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 22–Pres/2015 – The President is pleased to approve the award of the “Sena Medal/Army Medal” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage:—

1. IC-56184W LIEUTENANT COLONEL GALBA SIVA KIRAN KUMAR, ARMY AVIATION CORPS /  
2051 ARMY AVIATION SQUADRON (UTILITY HELICOPTER)
2. IC-59579H LIEUTENANT COLONEL AKKULA BALAKRISHNA  
CORPS OF ENGINEERS / NATIONAL SECURITY GUARD

3. IC-62163W MAJOR RAMAN JHA  
7<sup>TH</sup> BATTALION THE JAT REGIMENT
4. IC-64202H MAJOR PN SUJAY KUMAR  
18<sup>TH</sup> BATTALION THE MAHAR REGIMENT
5. IC-68291K MAJOR ABHINAV BOSE  
MECHANIZED INFANTRY / 21<sup>ST</sup> BATTALION THE ASSAM RIFLES
6. IC-68473X MAJOR GAURAV DIXIT  
2<sup>ND</sup> BATTALION THE RAJPUT REGIMENT
7. IC-69642A MAJOR CHANNABASAVESH K GUNDE  
THE MAHAR REGIMENT / 1<sup>ST</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
8. IC-70694H MAJOR HITESH KUMAR BHARDWAJ  
CORPS OF ENGINEERS / 10TH BATTALION THE ASSAM RIFLES
9. IC-71200A MAJOR SURINDER JEET SINGH  
CORPS OF ENGINEERS / 44<sup>TH</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
10. IC-7164W MAJOR VIKAS VARYANI  
CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEER /  
39 (INDEPENDENT) RECONNAISSANCE & OBSERVATION FLIGHT (POSTHUMOUS)
11. IC-72942M MAJOR DHRUBABRATA KAKOTI  
THE JAT REGIMENT / 1<sup>ST</sup> BATTALION THE ASSAM REGIMENT
12. IC-73243N MAJOR JAVED AKHTAR  
BRIGADE OF THE GUARDS / 21<sup>ST</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
13. IC-74971A MAJOR DALBIR MALIK  
7<sup>TH</sup> BATTALION THE JAT REGIMENT
14. SC-00568Y MAJOR ROOP SINGH NEGI  
5/5<sup>TH</sup> BATTALION THE GORKHA RIFLES (FRONTIER FORCE)
15. IC-71436P CAPTAIN AVINASH YESHWANT SOMVANSHI, ARMY AVIATION CORPS, 39  
(INDEPENDENT) RECONNAISSANCE AND OBSERVATION FLIGHT (POSTHUMOUS)
16. IC-75598X CAPTAIN KAPIL TOMAR  
ARMY SUPPLY CORPS / 19<sup>TH</sup> BATTALION THE DOGRA REGIMENT
17. IC-75650P CAPTAIN ABHISHEK AHLAWAT  
CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEER /  
2<sup>ND</sup> BATTALION THE RAJPUT REGIMENT
18. IC-76764M CAPTAIN RANJITH KP  
ARMY SERVICE CORPS / 2<sup>ND</sup> BATTALION THE BIHAR REGIMENT
19. SS-46014Y CAPTAIN ANKUR TYAGI  
CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEER  
19<sup>TH</sup> BATTALION THE DOGRA REGIMENT
20. IC-76702M LIEUTENANT TARUN VERMA,  
3 JAK RIF
21. JC-19441L SUBEDAR NAINA SINGH RAWAT  
1<sup>ST</sup> BATTALION THE ASSAM RIFLES
22. JC-460478P NAIB SUBEDER KANKANWADI DURADUNDI IRAPPA,  
19<sup>TH</sup> BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY  
(POSTHUMOUS)
23. JC-618130H NAIB SUBEDER BHIM BAHADUR GURUNG  
5/5<sup>TH</sup> BATTALION THE GORKHA RIFLES (FRONTIER FORCE)
24. 2688666H HAVILDAR NORANG RAM CHAHAR  
23<sup>RD</sup> BATTALION THE GRENADIERS
25. 2793421L HAVILDAR JADHAV SANDEEP BABASAHEB  
19<sup>TH</sup> BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY

26. 3998387A HAVILDAR VIJAY SINGH  
20<sup>TH</sup> BATTALION THE RAJPUTANA RIFLES
27. 4074978H HAVILDAR PUSHKAR SINGH  
7<sup>TH</sup> BATTALION THE GARHWAL RIFLES
28. 4568082N HAVILDAR DEEPAK TOMAR  
20<sup>TH</sup> BATTALION THE MAHAR REGIMENT
29. 4190345N NAIK KHEM CHANDRA  
THE KUMAON REGIMENT / 50<sup>TH</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES  
(POSTHUMOUS)
30. 4477647A NAIK JAGSIR SINGH  
5<sup>TH</sup> BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY  
(POSTHUMOUS)
31. 4478960X NAIK KULWINDER SINGH  
5<sup>TH</sup> BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY  
(POSTHUMOUS)
32. 5047156X NAIK DAMODAR THAPA  
THIRD BATTALION THE FIRST GORKHA RIFLES  
(POSTHUMOUS)
33. 3195822X LANCE NAIK SHANKAR LAL BOCHLIYA  
20<sup>TH</sup> BATTALION THE JAT REGIMENT  
(POSTHUMOUS)
34. 4085106A LANCE NAIK KESHAR SINGH  
7<sup>TH</sup> BATTALION THE GARHWAL RIFLES
35. 15334151W LANCE NAIK ARUN S  
3<sup>RD</sup> ENGINEER REGIMENT (POSTHUMOUS)
36. 15619838F LANCE NAIK CHENABASAPPA PUJAR  
BRIGADE OF THE GUARDS / 21<sup>ST</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
37. 2803346H SEPOY BHIKALE UTTAM BALU  
2<sup>ND</sup> BATTALION THE MARATHA LIGHT REGIMENT  
(POSTHUMOUS)
38. 2806850N SEPOY DOKE GANESH DATTATRAYA  
THE MARATHA LIGHT INFANTRY / 41<sup>ST</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
39. 4005533L SEPOY BALBIR DASS  
THE DOGRA REGIMENT / 40<sup>TH</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
40. 4005856N SEPOY OM PRAKASH  
19<sup>TH</sup> BATALLION THE DOGRA REGIMENT
41. 4578844K SEPOY RAGHUWINDER SINGH  
18<sup>TH</sup> BATTALION THE MAHAR REGIMENT
42. 5049805W RIFLEMAN REKAM BAHADUR THAPA MAGAR  
THE GORKHA RIFLES / 15<sup>TH</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
43. 9113484M RIFLEMAN MEER OWAIS HUSSAIN  
THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY  
50<sup>TH</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES  
(POSTHUMOUS)
44. 12974757X RIFLEMAN MUSHTAQ AHMAD MIR  
THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY  
53<sup>RD</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES  
(POSTHUMOUS)

45. G/5022003H RIFLEMAN TAKHELLAMBAM GOKIL SINGH  
13<sup>TH</sup> BATTALION THE ASSAM RIFLES  
(POSTHUMOUS)
46. 4091526W PARATROOPER MUKESH SINGH  
THE PARACHUTE REGIMENT / 3<sup>RD</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
47. 2708314P GRENADIER RAHUL KUMAR  
23<sup>RD</sup> BATTALION THE GRENADIERS
48. 15207857M GUNNER MANPREET SINGH  
REGIMENT OF ARTILLERY / 31ST FIELD REGIMENT  
(POSTHUMOUS)

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 23-Pres/2015 – The President is pleased to approve the award of the “Nao Sena Medal” to the under mentioned personnel for the act of exceptional courage:

1. COMMANDER KUNTAL WADHWA (41909-Y) (POSTHUMOUS)
2. VISHNU P UNNI, SEA I RC III, 224696 Z (POSTHUMOUS)

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 24-Pres/2015 – The President is pleased to approve the award of the “Vayu Sena Medal/Air Force Medal” to the under mentioned personnel for the act of exceptional courage:—

1. WING COMMANDER MANEESH KUMAR ROY (22980) FLYING (PILOT)
2. WING COMMANDER SAURABH SHARMA (23209) FLYING (PILOT)
3. WING COMMANDER AMIT JAIN (25110) FLYING (PILOT)
4. WING COMMANDER ANUP SHARMA (25310) FLYING (PILOT)
5. WING COMMANDER PANKAJ SHARMA (25628) FLYING (PILOT)
6. SQUADRON LEADER MANTEJ SINGH SOMAL (26996) FLYING (PILOT)
7. SQUADRON LEADER SAURABH RAGHUVANSHI (27955) FLYING (PILOT) (POSTHUMOUS)
8. SQUADRON LEADER KAPIL KAREEM (29719) FLYING (PILOT)
9. 781094 SERGEANT RAVINDER KUMAR JAKHAR PARACHUTE JUMP INSTRUCTOR
10. 918575 CORPORAL MOMOCHA NINGTHOUJAM INDIAN AIR FORCE (SECURITY)
11. PA NO 42477 SHRI RAVINDER KUMAR LEADING HAND FIREMAN (POSTHUMOUS)

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 25-Pres/2015– The President is pleased to approve the award of the “Sena Medal/Army Medal” to the under mentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:—

1. IC-38928N MAJOR GENERAL ANIL PRAHLAD BAM  
REGIMENT OF ARTILLARY
2. IC-35955M MAJOR GENERAL AMRIK SINGH  
INFANTRY

3. DR-10328P MAJOR GENERAL GOPAL KRISHAN THAPLIYAL  
ARMY DENTAL CORPS / COMMAND MILITARY DENTAL CENTRE, WESTERN COMMAND
4. IC-40078N BRIGADIER AMARDEEP SINGH SIDHU  
VISHISHT SEVA MEDAL / ARMY AVIATION CORPS
5. IC-40685M BRIGADIER RAJ SHUKLA  
REGIMENT OF ARTILLERY
6. IC-41547X BRIGADIER ROHIT GUPTA  
THE MECHANISED INFANTRY
7. IC-41595X BRIGADIER MANOJ KUMAR SINGH YADAV,  
ARMY SERVICE CORPS
8. IC-41960N BRIGADIER ASHWANI KUMAR CHANNAN  
REGIMENT OF ARTILLERY
9. IC-43126N BRIGADIER PARDEEP SOFAT  
THE SIKH REGIMENT
10. IC-44498L BRIGADIER RAM CHANDER TIWARI  
THE KUMAON REGIMENT / HEADQUARTERS 112 MOUNTAIN BRIGADE
11. IC-44572F BRIGADIER SANJAY THAKARAN,  
THE GARHWAL RIFLES / HEADQUARTERS 10 INFANTRY BRIGADE
12. IC-47139H BRIGADIER PUSHPENDRA PAL SINGH,  
THE PARACHUTE REGIMENT / HEADQUARTERS 104 INFANTRY BRIGADE
13. IC-46034M COLONEL DEVINDAR KUMAR  
BRIGADE OF THE GUARDS / HEADQUARTERS INTEGRATED DEFENCE STAFF
14. IC-48525F COLONEL VIKAS ROHELLA  
CORPS OF ENGINEERS /HEADQUARTERS CHHATTISGARH AND ODISHA SUB AREA
15. IC-49459W COLONEL SANJIV RANJAN SHARMA,  
JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY
16. IC-49114P COLONEL KOGANTI SOMASHANKAR  
THE JAT REGIMENT
17. IC-50313P COLONEL MOHIT TRIVEDI,  
THE GRENADIERS
18. IC-50404Y COLONEL ANIRBAN DATTA  
9<sup>TH</sup> BATTALION THE GORKHA RIFLES
19. IC-52021L COLONEL ARUPENDU GUPTA  
THE GRENADIERS / ARMY WAR COLLEGE, MHOW
20. IC-52764N COLONEL SUSHIL KUMAR CHOUDHARY  
CORPS OF SIGNALS / 56 INFANTRY DIVISION SIGNAL REGIMENT
21. IC-52885P COLONEL SACHIN DUBEY  
ARMY AVIATION CORPS / 664 ARMY AVIATION SQUADRON (R&O)
22. IC-52930W COLONEL VIKAS KEPRATE  
ARMY AVIATION CORPS / 662 ARMY AVIATION SQUADRON (R&O)
23. IC-53250H COLONEL NAMEIRAKPAM ROMEO SINGH  
2<sup>ND</sup> BATTALION THE RAJPUT REGIMENT
24. IC-53444L COLONEL AMIT SHARMA  
4<sup>TH</sup> BATTALION THE GORHKHA RIFLES
25. IC-55716Y COLONEL RAJDEEP SINGH LEHAL,  
THE MARATHA LIGHT INFANTRY / 17<sup>TH</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES



26. IC-58301P COLONEL ARUN PRATAP SINGH BHADORIA,  
THE NAGA REGIMENT / 50<sup>TH</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
27. IC-56636N COLONEL RAHUL MACHHRAL  
REGIMENT OF ARTILLERY / 111 ROCKET REGIMENT
28. IC-56426N LIEUTENANT COLONEL DIGVIJAY SINGH BISHT,  
ARMY AVIATION CORPS / 662 ARMY AVIATION SQUADRON (R&O)
29. IC-56645P LIEUTENANT COLONEL NAVNEET CHAIL,  
ARMY AVIATION CORPS/204, ARMY AVIATION SQUADRON (UH)
30. IC-57877A LIEUTENANT COLONEL ANISH KISHORE  
ARMY AVIATION CORPS / 37<sup>TH</sup> INDEPENDENT (R&O) FLIGHT
31. IC-59086F LIEUTENANT COLONEL AMIT KUMAR,  
ARMY AVIATION CORPS/ 9<sup>TH</sup> (INDEPENDENT) R&O FLIGHT
32. IC-59656M LIEUTENANT COLONEL ROHIT DEVRANI  
ARMY AVIATION CORPS / 204 ARMY AVIATION SQUADRON (UH)
33. IC-59732N LIEUTENANT COLONEL SHREEKAR ASHOK PILLAI,  
2 BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY
34. IC-60650X MAJOR BODHISATTWA CHAKRABARTI  
10<sup>TH</sup> BATTALION THE ASSAM REGIMENT
35. IC-62116Y MAJOR UDAIJEET SINGH JASWAL,  
3<sup>RD</sup> BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES
36. IC-62339W MAJOR BICKY SHARMA,  
REGIMENT OF ARTILLARY / 29<sup>TH</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
37. IC-68100K MAJOR ANAND BOHRA, INTELLIGENCE CORPS  
3 CORPS INTELLIGENCE AND SURVEILLANCE UNIT
38. IC-70843L MAJOR VIPIN CHANDRA DANDRIYAL  
3<sup>RD</sup> BATTALION THE 11<sup>TH</sup> GORKHA RIFLES
39. IC-63704Y MAJOR AKHIL SINGHAL, 21 ENGR REGT
40. IC-63987L MAJOR ANAND SINGH BISHT, THE JAT REGIMENT,  
5<sup>TH</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
41. JC-378410F SUBEDAR BAGANE RAJENDRA SHIVAJI  
CORPS OF SIGNALS (POSTHUMOUS)
42. JC-635217A NAIB SUBEDAR JITU RAI  
11<sup>TH</sup> BATTALION THE GORKHA RIFLES / ARMY MARKSMANSHIP UNIT,  
THE INFANTRY SCHOOL, MHOW (MP)

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 26–Pres/2015 – The President is pleased to approve the award of the “Nao Sena Medal” to the under mentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:—

1. COMODORE KAMLESH KUMAR SINGH (41098-B)
2. COMODORE SUDHIR GOPALAKRISHNA (03261-K)
3. CAPTAIN SURAJ BERRY, VSM (03101-Y)
4. CAPTAIN V HIREMATH (41760-H)

5. CAPTAIN MADHU GENTELA (51104-W)
6. COMMANDER WINGSTON MATHEWS T (03367-A)
7. COMMANDER SIVASANKAR RAVI (03828-Z)
8. DHARAM PAL YADAV, MC MECH I (114381-H)

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 27—Pres/2015 – The President is pleased to approve the award of the “Vayu Sena Medal/Air Force Medal” to the under mentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:—

1. GROUP CAPTAIN VISHNAMETTAI RAMAMURTHY VISHWANATHAN (21229) FLYING (PILOT)
2. GROUP CAPTAIN ANIMESH KUMAR SINGH (21255) FLYING (PILOT)
3. GROUP CAPTAIN VIPUL SINGH (21537) FLYING (PILOT)
4. GROUP CAPTAIN MACHETIRA KARUMBIAH PRAVEEN (22373) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
5. GROUP CAPTAIN SANDEEP BALYAN (22699) FLYING (PILOT)
6. GROUP CAPTAIN PRADEEP ARUN SHAH (22925) FLYING (PILOT)
7. GROUP CAPTAIN VINAY PRATAP SINGH (22951) FLYING (PILOT)
8. GROUP CAPTAIN PANKAJ MITTAL (23166) FLYING (PILOT)
9. GROUP CAPTAIN RAJESH VARMA (23190) FLYING (PILOT)
10. GROUP CAPTAIN RATISH KUMAR (23513) FLYING (PILOT)
11. GROUP CAPTAIN SANJEEV KANWAR (23520) FLYING (PILOT)
12. GROUP CAPTAIN TAHIR HUSSAIN ABDULGANI SHAIKH (23527) FLYING (PILOT)
13. GROUP CAPTAIN ASHISH KUMAR (23529) FLYING (PILOT)
14. GROUP CAPTAIN KAZA JYOTIR MAHENDRA (23762) FLYING (PILOT)
15. WING COMMANDER MUKESH KOTHARI (24047) FLYING (PILOT)
16. WING COMMANDER GOVIND BHIKAJI PATOLE (24211) FLYING (PILOT)
17. WING COMMANDER ROSHA (24241) FLYING (PILOT)
18. WING COMMANDER SIDDABATHULA GOPI MOHAN (24527) FLYING (PILOT)
19. 675144 MASTER WARRANT OFFICER ANAND PRAKASH TRIPATHI FLIGHT GUNNER

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 28—Pres/2015 – The President is pleased to give orders for publication in the Gazette of India of the names of the under mentioned officers/personnel for “Mention in Despatches” received by the Raksha Mantri from the “Chief of the Army Staff”:—

OPERATION TRISHUL SHAKTI

1. 4289576M SEPOY NABIN DUNG DUNG, 2 BIHAR

## OPERATION MEGH RAHAT

1. IC-58217P LIEUTENANT COLONEL BHOPINDER SINGH SAGGI, 2 FOD
2. SS-45444W CAPTAIN UMASHANKAR NANJAPPA, 102, ENGR REGT
3. JC-27562 6H SUBEDAR LAVHATE RAMDAS SAHEBRAO, 169 FD REGT
4. 4073622H HAVILDAR SARAT SINGH, 3 GARH RIG
5. 2791668N HAVILDAR PATIL AMAR ARJUN, 14 MARATHA LI
6. 12974868P RIFLEMAN BILAL AHMAD BEGH, 162 INF BN (TA)JAK LI
7. 15712902A SIGNAL MAN SABLE AMAR SHIVAJI, SIGS, 34 RR

## OPERATION MEGHDOOT

1. IC-58363P LIEUTENANT COLONEL PRATIBIMB, ARMY AVN, 30 (I) R&O FLT
2. IC-64524H MAJOR AJITH SREEKUMAR, 12 SIKH LI
3. JC-500760L NAIB SUBEDAR SUKHWINDER SINGH, 19 SIKH
4. 2888783X HAVILDAR SHANKER LAL BHICHER, 20 RAJ RIF

## OPERATION RAKSHAK

1. IC-64048P MAJOR PUNEET DILAWARI, ARMY AVN, 4 R&O FLT /662 ARMY AVN SQN (R&O)
2. IC-64498M MAJOR GAUTAM NISHANT, ARMY AVN, 37 (I) R&O FLT
3. IC-66905H MAJOR JAGANDEEP SINGH MALHOTRA, ASC, 2 RR
4. IC-67387A MAJOR RAHUL GUPTA, ARMY AVN, 2 R&O FLT / 662 ARMY AVN SQN (R&O)
5. IC-68036X MAJOR NILESH BISHT, ARMY AVN, 9 (I) R&O FLT
6. IC-68704H MAJOR SAHIL SHARMA, ARMY AVN, 4 R&O FLT
7. IC-69262F MAJOR AMIT PANDEY, GUARDS, 21 RR
8. IC-69271H MAJOR SACHIN PATIL, GUARDS, 21 RR
9. IC-70989Y MAJOR RAJ KUMAR, 5 GRENADIERS
10. IC-70990N MAJOR LINSON LAWRENCE, MARATHA LI, 56 RR
11. IC-71349F MAJOR VIKASH KUMAR, 27 RAJPUT
12. IC-72756W MAJOR SUCHIT PANDEY, ENGRS, 3 RR
13. IC-73249P MAJOR JITENDER DHIMAN, SM, PUNJAB, 22 RR
14. SS-44230N MAJOR VARUN GUPTA, ENGRS, 44 RR
15. IC-72417W CAPTAIN ABHISHEK KUMAR, 4 PARA (SF)
16. IC-77338L CAPTAIN GAUTHAM S, AOC, 5 GRENADIERS
17. IC-76442M LIEUTENANT VINOD SHARMA, 10 PARA (SF), 3 RR
18. 2689374M HAVILDAR SATTAR KHAN, 5 GRENADIERS
19. 2888686A HAVILDAR DEEP SINGH, 13 RAJ RIF
20. 2994828X HAVILDAR MURARI SINGH, RAJPUT, 10 RR
21. 15313303Y HAVILDAR M VINOD KUMAR, 4 ENGR REGT
22. 15313611Y HAVILDAR K SOLAIRAJ, ENGRS, 1 RR
23. 5248944X LANCE HAVILDAR LIL BAHADUR THAPA, 5/3 GR, 32 RR
24. 14934194M LANCE NAIK SATYWAN, MECH INF, 50 RR
25. 15797197F LANCE NAIK NARESH KUMAR, AAD, 15 RR
26. 2700671H LANCE NAIK DINESH KUMAR GURJAR, 5 GRENADIERS
27. 4092597K RIFLEMAN DHARMENDRA SINGH, 7 GARH RIF
28. 5456820F RIFLEMAN SUMIT GURUNG, 5/5 GR (FF)
29. 12954901A RIFLEMAN GHULAM AHMAD HARY, 160 INF BN TA (H&H) (JAK RIF)

## OPERATION ORCHID

1. G/5010921H RIFLEMAN KHAMGI AGI, 1 ASSAM RIF

## OPERATION HIFAZAT

1. IC-70427F MAJOR SWATANTRA SINGH KASHYAP, GORKHA RIF, 13 ASSAM RIF

## OPERATION FALCON

1. IC-63582A MAJOR SACHIN SHRIVASTAVA, 13 PUNJAB (JIND)
2. IC-75094K MAJOR BHANU RANA, 2 NAGA

## OPERATION RHINO

1. IC-63441L MAJOR MANOJ SINGH, 2 DOGRA
2. IC-76199A CAPTAIN MUKESH KUMAR, EME, 18 MAHAR

3. IC-77854A CAPTAIN SACHIN KUMAR RAI, 19 DOGRA
4. SC-00750Y LIEUTENANT RAHUL DEV SHARMA, ASC, 18 MAHAR
5. JC-519509K SUBEDAR BIKRAM SINGH, 19 DOGRA
6. 3189093K HAVILDAR ARJUN RAM, 7 JAT
7. 4570817L HAVILDAR SHIV CHARAN, 18 MAHAR
8. 13756876X HAVILDAR JAGDEV SINGH, 3 JAK RIF
9. 3188720Y LANCE HAVILDAR RAJESH KUMAR, 19 DOGRA
10. 3000683F LANCE NAIK RAMPHAL, 2 RAJPUT
11. 3004810H SEPOY LAXMAN RAM, 2 RAJPUT
12. 4005806H SEPOY SANGRAM SINGH, 19 DOGRA
13. 13769260H RIFLEMAN SANDEEP KUMAR, 3 JAK RIF

SURESH YADAV  
OSD to the President

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,  
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

[www.dop.nic.in](http://www.dop.nic.in)